



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18—अगस्त 24, 2007 (श्रावण 27, 1929)  
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18—AUGUST 24, 2007 (SRAVANA 27, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

#### राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 26 जुलाई 2007

सं. 39011/17/06-प्रशा.--सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक और प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री एच. शेरिडन माजिल फिआनो 24.07.2007 पूर्वाह्न को सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

#### राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2007

सं. आरएस./3(i)/2004/82-कार्मिक.--इस सचिवालय की अधिसूचना सं. आरएस./3/2004/64-कार्मिक, दिनांक 31 अगस्त, 2006 के अनुक्रम में, राज्य सभा के सभापति ने इस सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी, श्री आर. के. सिंह की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को 1 नवम्बर, 2007 से 30 अक्टूबर, 2008 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है।

ए. एम. जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./1/2004/83-कार्मिक.--इस सचिवालय की अधिसूचना सं. आरएस./1/2004/44-कार्मिक, दिनांक 26 अगस्त, 2005 के अनुक्रम में, राज्य सभा के सभापति ने इस सचिवालय में संयुक्त सचिव, श्री रवि कांत चौपड़ा की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को 11 नवम्बर, 2007 से 10 नवम्बर, 2008 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है।

ए. एम. जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./6(i)/2007/84-कार्मिक.--राज्य सभा के माननीय सभापति (श्री भैरो सिंह शेखावत) के वैयक्तिक स्टाफ में उनके नाम के आगे उल्लिखित पदों पर सह-पदावसान आधार पर नियुक्त किए गए निम्नलिखित व्यक्तियों की सेवाएं 21 जुलाई, 2007 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि दिए जाने के बाद 5 अगस्त, 2007 के अपराह्न से समाप्त मानी जाएंगी :--

- (i) श्री के. एल. कोचर, प्रेस सलाहकार
- (ii) श्री अशोक कुमार आर्य, विशेष कार्याधिकारी
- (iii) श्री डी. एन. गुप्ता, वरिष्ठ निजी सचिव

2. श्री अशोक कुमार आर्य और श्री डी. एन. गुप्ता, जो प्रतिनियुक्ति पर थे, की सेवाओं को वापस उनके मूल कार्यालय अर्थात् क्रमशः केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) का कार्यालय, अहमदाबाद तथा राजस्थान विधान सभा सचिवालय को सौंप दिया जाएगा।

ए. एम. जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./6(i)/2007/85-कार्मिक.--राज्य सभा के माननीय सभापति (श्री भैरो सिंह शेखावत) के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में सह-पदावसान और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए श्री महावीर प्रसाद शर्मा की सेवाएं 21 जुलाई, 2007 से 30 दिनों की परिसमापन अवधि दिए जाने के बाद 21 अगस्त, 2007 के अपराह्न से समाप्त मानी जाएंगी और उनकी सेवाओं को वापस उनके मूल संगठन अर्थात् राज्य सभा सचिवालय को सौंप दिया जाएगा।

ए. एम. जार्ज, निदेशक

दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. आरएस./1239/स्था.(कार्मिक).--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) 31 जुलाई 2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

ए. एम. जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./1488/स्था.(कार्मिक).--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री विजय क्रांत श्रीवास्तव, उप-निदेशक (संपा. एवं अनु.) 31 जुलाई, 2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

ए. एम. जार्ज, निदेशक

दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. आरएस./3(xi)/2007/87-कार्मिक.--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (संपा. एवं अनु.) श्री आर. वी. शर्मा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (संपा. एवं अनु.) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

ए. एम. जार्ज, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2007

सं. आरएस./6(i)/2007/88-कार्मिक.--अधिसूचना सं. आरएस/6(i)/2007/84-कार्मिक दिनांक 30 जुलाई, 2007 का आंशिक संशोधन करते हुए माननीय सभापति श्री भैरो सिंह शेखावत के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त श्री अशोक कुमार आर्य, विशेष कार्य अधिकारी की सेवाओं को, 5 अगस्त, 2007 के अपराह्न से समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् उनके मूल कार्यालय अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय को वापस सौंप दिया जाएगा।

के. सुधाकरन, उप निदेशक

दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. आरएस./4(v)/2007/89-कार्मिक.--राज्य सभा के माननीय सभापति

ने श्री विनय कुमार को 03 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान तथा नियमों के अधीन यथाग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ राज्य सभा सचिवालय में अस्थायी कनिष्ठ संसदीय वृत्तलेखक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

के. सुधाकरन, उप निदेशक

सं. आरएस./6(i)/2007/90-कार्मिक.--अधिसूचना सं. आरएस/6(i)/2007/84-कार्मिक दिनांक 30 जुलाई, 2007 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सभा के माननीय सभापति (श्री भैरो सिंह शेखावत) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर नियुक्त श्री के. एल. कोचर, प्रेस सलाहकार की सेवाएं अब 5 अगस्त, 2007 के स्थान पर 21 जुलाई, 2007 से 30 दिनों की परिसमापन अवधि दिए जाने के पश्चात् 21 अगस्त के अपराह्न से समाप्त हो जाएंगी।

के. सुधाकरन, उप निदेशक

सं. आरएस./6(i)/2007/91-कार्मिक.--अधिसूचना सं. आरएस/6(i)/2007/85-कार्मिक दिनांक 30 जुलाई, 2007 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सभा के माननीय सभापति (श्री भैरो सिंह शेखावत) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त श्री महावीर प्रसाद शर्मा, निजी सचिव की सेवाएं अब 21 अगस्त, 2007 के स्थान पर 21 जुलाई, 2007 से उन्हें 15 दिनों की परिसमापन अवधि दिए जाने के पश्चात् 5 अगस्त 2007 के अपराह्न से समाप्त हो जाएंगी और उनके मूल कार्यालय अर्थात् राज्य सभा सचिवालय को वापस सौंप दी जाएंगी।

के. सुधाकरन, उप निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. ए-38012/01/2007-प्रशा. 1.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री एन. सी. पाधी, भा.पु.से. (मध्य प्रदेश : 1968), सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय, 31 जुलाई, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 अगस्त 2007

सं. ए-19011/2/2007-प्रशासन.--राष्ट्रपति, श्री शेखर दत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्यप्रदेश : 69) (सेवानिवृत्त) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर, सामरिक एवं रक्षा संबंधी मामलों के लिए, भारत सरकार के सचिव पद व वेतनमान में, पहली बार दिनांक 01.08.2007 से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अग्रिम कौशल, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जुलाई 2007

सं. ए-19016/267/2005-प्रशा. III.--योजना आयोग की दिनांक 09.11.2005, 25.07.2006 और 09.01.2007 की समसंख्यक अधिसूचना

के अनुक्रम में और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2005, 19.06.2006 एवं 29.12.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/20/2005-सीएस और दिनांक 11.07.2007 के का. ज्ञा. संख्या 5/5/2007-सीएस II के अनुसरण में राष्ट्रपति, सीएसएसएस संवर्ग की प्रधान निजी सचिव, सुश्री जानकी वेंकटेश्वरन की तदर्थ पदोन्नति की अवधि को 12,000—16,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर योजना आयोग में 31.12.2007 तक वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में, अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

सुश्री जानकी वेंकटेश्वरन की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें पद पर अनिश्चितकाल के लिए बने रहने और सीएसएसएस संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता हेतु दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2007

सं. ए-32013/7/2006-प्रशा.-I(वि.वि.).--राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में उप-विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर दिनांक 11 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

- (1) श्री उदय कुमार
- (2) श्रीमती सुधा रानी रेलंगी

2. श्री उदय कुमार और श्रीमती सुधा रानी रेलंगी, उप-विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) दिनांक 11 जुलाई, 2007 से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

के. वि. कुमार, सहायक विधायी परामर्शी एवं  
शाखा अधिकारी (प्रशा.-I)

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए-32013/2/2007-प्रशा. IV(वि.का.).--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 जुलाई, 2007 के का. ज्ञा. सं. 3/2/2006-सीएस I के तहत वर्ष 2003 के लिए निदेशक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के पद की उपयुक्तता सूची में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) सुश्री किरन पुरी को दिनांक 24 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. ए-12023/2/2003-प्रशा.-III(वि.का.).--राष्ट्रपति, आयकर अपीलीय अधिकरण में सहायक पंजीकार श्री टी. रमण को दिनांक 21 मई,

2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अधिकरण में वर्ष 2003-2004 की रिक्ति के लिए रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से उप पंजीकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. ए-12023/3/2007-प्रशा.-III(वि.का.).--राष्ट्रपति, प्रो. (श्रीमती) लक्ष्मी जम्भोलकर को दिनांक 9 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से दिनांक 31 अगस्त, 2009 अर्थात् 18वें विधि आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक भारत के 18वें विधि आयोग में अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 अगस्त 2007

सं. ए-32013/2/2007-प्रशा.I(पार्ट-VI).--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय के निम्नलिखित उप सचिवों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	निदेशकों की उपयुक्तता सूची का वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री आर. के. मित्रा	2003	24.07.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री आर. के. सिंह	2003	24.07.2007 (पूर्वाह्न)

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2007

सं. 24012/6/2007-अ.भा.से.-(II).--राष्ट्रपति 2006 बैच की सुश्री इस्तर निंघोवुंग हंगल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षार्थी) द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिए गए त्याग पत्र को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से स्वीकार करते हैं।

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2007

सं. 14013/01/2007-अ.भा.से.-(III).--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री अभिजीत चौधरी को दिनांक 27.04.2005 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. 39019/02/2007-स्था.(ख).--राष्ट्रपति, डॉ. के. के. पॉल, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को 26 जुलाई, 2007 (पूर्वाह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सती मोहनदास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं ए-60011/6/2005-प्रशा.1(जी.).--

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) और 19(1) तथा इस विषय में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं तथा संशोधनों के अतिक्रमण में एतद्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा उनके अधीनस्थों के रूप में पदनामित किया जाता है:-

क्रम	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	विषय-मामला	पदनाम सहित अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1.	श्री रविन्द्र कुमार	अवर सचिव ( एस.एम. II )	23093913	भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सांविधिक आयोगों/अधिकरणों, वित्तीय संस्थानों (बैंक तथा बीमा निगमों को छोड़कर) स्वायत्त संस्थानों में संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति से सम्बन्धित सभी मामले ।	श्री आलोक कुमार निदेशक (ए.सी.सी.) 23092272
2.	श्री एस.के. अहलुवालिया	अवर सचिव ( ए.सी.सी. )	23094575	भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे/बैंकों और वित्तीय संस्थानों ( बैंकों और बीमा कम्पनियों ) में बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ ; केन्द्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति	- यथोपरि -

3.	श्रीमती विमला बक्शी	अवर सचिव एस.एम.(II)	23094575	केन्द्र में संयुक्त सचिव/समकक्ष पद धारण करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों का पैनेल बनाना।	श्रीमती रचना शाह निदेशक (एस.एम.) 23092187
4.	श्रीमती अपर्णा सचिन शर्मा	अवर सचिव (एफ.ए.यू.एन)	23094575	भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/भारतीय वन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा तथा अन्य समूह 'क' सेवा अधिकारियों को विभिन्न संयुक्त राष्ट्र/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में विदेश नियुक्ति प्रशिक्षण/परामर्शदात्री नियुक्तियों पर भेजे जाने सम्बन्धी; केन्द्रीय स्थापना बोर्ड की बैठकें आयोजित करने; विदेश नियुक्ति मामलों सम्बन्धी संसदीय कार्य महासचिव कोलम्बो योजना एवं ए.आर.आर. यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली के पदों को भरने; खुले विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन करने वाले सचिव स्तर के अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने से सम्बन्धित सभी मामले।	श्रीमती त्रिशलाजीत सेठी निदेशक (एम.एम.) 23092842
5.	श्री प्रकाश जय	अवर सचिव (अ.भा.से.) (पदोन्नति- डेस्क)	23093683	राज्य सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा से भिन्न सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.सेवा में पदोन्नति; विभिन्न सांविधिक विनियमों आदि के प्रवर्तन से सम्बद्ध मामले।	श्री अश्वनी कुमार निदेशक (अ.भा.से.) 23093064
6.	श्री परमा नंद	अवर सचिव (अ.भा.से.) (वरिष्ठ-डेस्क)	23093063	नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन; राज्य सिविल सेवाओं/राज्य सिविल सेवाओं से भिन्न सेवाओं से पदोन्नत/नियुक्त भा.प्र.सेवा अधिकारियों के आबंटन-वर्ष के नियतन और सांविधिक नियमों के प्रवर्तन से सम्बद्ध मामले।	- यथोपरि -

7.	श्री पाण्डेय	जी.सी.	अवर सचिव (अ.भा.से. III)	23092285	भा.प्र.सेवा/भा.पु.सेवा (परिवीक्षार्थी) नियम; अखिल भारतीय सेवा के विभिन्न नियमों के विनियम; भा.प्र.सेवा सिविल सूची/अखिल भा.से. मैन्युअल के मुद्रण/प्रकाशन; भा.व.से.(परिवीक्षा) नियम, भा.पु.से. (वर्दी) नियमों के विनियमों से सम्बद्ध सभी मामले ।	श्री चैतन्य प्रसाद निदेशक ( से.) 23093591
8.	श्री जोशी	कबिन्द्र	अवर सचिव (ए.वी.डी.-I)	23094224	भा.प्र.सेवा के विरुद्ध अनुशासनिक/शिकायत सम्बन्धी सभी मामले; इन विषयों से सम्बन्धित सतर्कता अनापत्ति और न्यायालय मामले; प्रधान मंत्री कार्यालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय से प्राप्त शिकायतें; आचरण नियमों के संशोधन के बारे में ए.डी.बी. परियोजना; भा.प्र.सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित विशेषाधिकार नोटिस/उत्तर; केन्द्रीय सतर्कता आयोग संदर्भ/रिपोर्ट और उनकी मॉनीटरिंग से सम्बन्धित सभी मामले ।	श्रीमती सक्सेना, उप सचिव (V-II) 23094398
9.	श्री कुमार	विजय	अवर सचिव (ए.वी.डी.-I)	23094799	भा.प्र.से. अधिकारियों के अनुशासनिक मामलों और उससे सम्बद्ध नीति; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भा.प्र.से. अधिकारियों के अभियोजन के लिए प्रस्ताव; कानूनी अदालत द्वारा दोषसिद्ध हो जाने के परिणामस्वरूप मामलों की जाँच-पड़ताल कर यथोचित कार्रवाई आदि; अपीलों की जाँच-पड़ताल/जाँच-पड़ताल कर उन पर यथोचित कार्रवाई/शास्तियों के विरुद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अभ्यावेदन से सम्बद्ध सभी मामले ।	- यथोपरि -
10.	श्री सिंह	राजबीर	अनुभाग अधिकारी (ए.वी.डी. II)	23093028	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले ।	- यथोपरि -
11.	श्री प्रकाश	चन्द्र	अवर सचिव (ए.वी.डी. III)	23092285	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले ।	- यथोपरि -

12.	श्री तेजा सिंह	अवर सचिव (ए.वी.डी. III)	23093846	केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले; भ्रष्टाचार निरोधी उपाय नीति के बारे में कार्य-योजना की मॉनीटरिंग; केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से सम्बन्धित शिकायतों के मामले; मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त सचिव के स्तर की नीचे के स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति।	श्रीमती हरजोत कौर बमहराह निदेशक (V-III) 23094637
13.	श्री के.डी. शर्मा	अवर सचिव (ए.वी.डी. IV)	23092379	मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों के मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों/शिकायतों/जाँचों से सम्बन्धित सभी मामले; भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित जाँच-आयोगों का गठन; मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के अभियोजन हेतु मंजूरी; केन्द्रीय लोकपाल विधान; केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सम्बन्धित विधान।	- यथोपरि -
14.	श्री ए.बलराम	अवर सचिव (स्थापना-क)	23093804	केन्द्रीय सेवाओं अर्थात् केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा(आवरण) नियम की सेवा शर्तों ( वित्तीय शर्तों के सिवाय) से सम्बद्ध सभी मामले; संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ; सरकारी कर्मचारियों के नाम में बदलाव; राजपत्र अधिसूचना जारी करने से सम्बन्धित नीति; पदों का वर्गीकरण एवं राजपत्रित दर्जा प्रदान करना; सीलबंद लिफाफे की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सिद्धांत; दक्षता-रोध।	श्री सी. सुब्रमणियन निदेशक (ई-II) 23092338
15.	श्री ए.के. चतुर्वेदी	अवर सचिव (स्थापना-क)	23092313	सेवानिवृत्ति की आयु से सम्बन्धित सभी मामले; स्वेच्छिक/समयपूर्व सेवानिवृत्ति; उदारीकृत पेंशन नियमों के प्रावधान; डॉक्टरी चिकित्सा नियम; सरकारी कर्मचारियों की जन्म-तिथि में बदलाव; छुट्टी-यात्रा रियायत, स्थानांतरण नीति।	- यथोपरि -

16.	श्रीमती राजबाला सिंह	अवर सचिव (स्था.-भत्ता)	23093846	आकस्मिक अवकाश तथा विशेष अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाशों, ठेके पर नियुक्ति, सर्विस रिकॉर्ड तथा सर्विस बुक, कश्मीर घाटी में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सुविधाओं से संबंधित मामले, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, मानदेय, अनिवार्य प्रतीक्षा, समयोपरि भत्ता, संसदीय सहायकों के लिए विशेष भत्ता, तरजीत भत्ते से संबंधित मामले ।	श्रीमती सिम्मी आर. नाकरा उप सचिव(येतन तथा भत्ते)23092483
17.	श्री एस.के. अरोड़ा	अवर सचिव (स्था.-ख) (डेस्क-11)	23092313	चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जांच से संबंधित सभी मामले, सरकारी सेवकों द्वारा हड़ताल, सरकारी सेवकों द्वारा विध्वंसक गतिविधियां, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों पर रोक लगाना, सरकारी सेवा में अल्पसंख्यक, केन्द्रीय सेवा तथा नेपाल एवं पाकिस्तान से आए तिब्बती प्रजा के लिए पदों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने आदि से संबंधित मामले/लोक उद्यम चयन बोर्ड तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित सभी नीतिगत मामले ।	श्री सी.ए. सुब्रमणियन निदेशक (स्था.-11) 23093180
18.	श्री ए.के. शर्मा	अवर सचिव (स्था.-ग)	23092313	सरकार के अंतर्गत रोजगार के लिए निवास या आवास संबंधी योग्यता, सरकारी सेवकों की परीक्षा, सी.सी.एस. (टी.एस.) नियमावली, 1965, उच्चतर पदों के लिए आवेदनों को अग्रसारित करना; तकनीकी त्याग-पत्र, सिविल पदों का स्थायीकरण/लियन, अस्थाई कर्मचारियों का नियमितीकरण, महिलाओं की स्थिति, अनुबंध दायित्व विलयन संबंधी सभी मामले ।	उपर्युक्त
19.	श्री ए.के. श्रीवास्तव	अवर सचिव (स्था.-घ)	23093804	रेलवे तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सेवाओं को छोड़कर केन्द्रीय सेवा की पदोन्नति एवं वरिष्ठता से संबंधित सभी मामले, आयु सीमा में शिथिलता, अस्थाई छंटनी किए गए सरकारी सेवकों की पुनर्नियुक्ति, करणामूलक नियुक्ति, मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति, तदर्थ नियुक्ति, सुनिश्चित कैरियर उन्नयन स्कीम (ए.सी.पी.), कैरियर उन्नयन स्कीम से संबंधित सभी मामले ।	शुश्री स्मिता कुमार निदेशक (स्था.-1) 23092479

20.	श्री रणबीर सिंह	अवर सचिव (आर.आर.-II)	23094254	भर्ती नियम/सेवा नियम/सेवा संवर्ग-संशोधन/उनसे संबंधित छूट के नियम बनाने, मंत्रालयों (गृह एवं स्वास्थ्य को छोड़कर ए से के) के संबंध में वेतन निर्धारण के सिवाय वैज्ञानिकों तथा डॉक्टरों के लिए लचीली अनुपूरक योजना से संबंधित सभी मामले ।	उपयुक्त
21.	श्री एस. जैनेन्द्र कुमार	अवर सचिव (आर.आर.)	23094254	भर्ती नियम/सेवा नियम/सेवा संवर्ग-संशोधन/उनसे संबंधित छूट, मंत्रालयों (एल से जेड तक गृह एवं स्वास्थ्य सहित) के संबंध में वेतन निर्धारण के सिवाय वैज्ञानिकों तथा डॉक्टरों के लिए लचीली अनुपूरक योजना से संबंधित सभी मामले ।	उपयुक्त
22.	श्री रतन कुमार शर्मा	अनुभाग अधिकारी (जे.सी.ए.)	23094678	बर्दी, एसोसिएशनाओं/यूनियनों को मान्यता देने, जे.सी.एम. तथा राष्ट्रीय परिषद, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कार्य का समय; केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश से संबंधित मामले ।	श्री महेन्द्र कुमार निदेशक (जे.सी.ए.) 23092589
23.	श्री ए.के. पाटनेय	अवर सचिव (ए.टी.)	23094142	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले ।	श्रीमती मंजू पांडे निदेशक (ए.टी.) 23094906
24.	श्री ए.के. कश्यप	अवर सचिव (आरक्षण)	23092110	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों/महिलाओं से संबंधित सभी मामले ।	श्री के.जी. वर्मा निदेशक (आरक्षण) 23092797
25.	श्री निर्मल कुमार	अनुभाग अधिकारी (स्था.-आरक्षण)	23093307	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित सभी मामले ।	उपयुक्त
26.	श्री बी.के. चुघ	उप सचिव (कल्याण)	24624204	केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के कल्याण कार्यों से संबंधित सभी नीतिगत मामले, गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय भंडार से संबंधित सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले ।	श्री आर.पी. नाथ निदेशक एवं मुख्य कल्याण अधिकारी 24625562
27.	श्री वी.के. वेलुकुट्टी	अवर सचिव (प्रशासन)	23092982	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित सभी कार्मिक तथा स्थापना मामले, रोकड़/बजट/दिल्ली की सरकारी निर्देशिका, लोक शिकायत, प्रवेशन मामले, प्रस्तुत करने का माध्यम	श्री सुरेश पाल निदेशक (प्रशासन) 23094319

				संबंधित मामले ।	
28.	श्री सागर मेहरा	अवर सचिव (समन्वय)	23094579	हाउस कीपिंग, मशीनरी तथा उपकरणों की आपूर्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं से संबंधित सभी मामले । समूह 'ग' (तकनीकी) तथा समूह 'घ' कर्मचारियों/कैटीन कर्मचारियों के स्थापना मामले, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए चिकित्सा पुनर्भुगतान/आवास आबंटन संबंधी मामले ।	उपर्युक्त
29.	श्री पी.के. मिश्रा	अवर सचिव (संवर्ग)	23093064	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्मिक एवं स्थापना मामले; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा का संवर्ग प्रबंधन ।	उपर्युक्त
30.	श्री जे.एस. दहिया	अवर सचिव (संसद)	23092240	सभी संसदीय मामले, स्टाफ कार चालकों तथा डिस्पैच राइडरों के कार्मिक मामले, वार्षिक रिपोर्ट ।	उपर्युक्त
31.	श्री हरीश चन्दर	अवर सचिव (सतर्कता)	23092298	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यरत सभी कार्मिकों के अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित सभी मामले/आडिट पैरा/संसदीय स्थाई समिति से संबंधित कार्य ।	उपर्युक्त
32.	श्री वी.ए. पिन्ले	अवर सचिव (लोक उद्यम चयन बोर्ड)	24361632	लोक उद्यम चयन बोर्ड के कार्यालय की कार्य प्रणाली से संबंधित सभी मामले ।	श्री राजेश्वर दयाल उप सचिव (लोक उद्यम चयन बोर्ड) 24362936
33.	श्री जेरोम मिंज	अवर सचिव (प्रशिक्षण)	26107957 26109049	डी.एफ.आई.डी.यू.एन.डी.पी. द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण परियोजनाओं तथा विशेष केन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम/संबंधित परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले, ई.आर.ओ.पी.ए. तथा प्रशिक्षण डिबीजन का बजट ।	श्री के.एस. साहा निदेशक (प्रशिक्षण) 26107956

34.	श्री कालड़ा	पी.पी.	अवर सचिव (प्रशिक्षण)	26161871	आन्तरिक वित्त पोषित विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	श्री बी. श्रीनिवास निदेशक (प्रशिक्षण) 26168197
35.	श्री चानन राम		अवर सचिव (अकादमी)	26109049	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले, जिला मजिस्ट्रेटों के पोर्टल, विकास तथा राज्य प्रशिक्षण कार्यों को सहायता संबंधी मामले ।	श्री के.एम. ब्रह्म उप सचिव (अकादमी) 26107966
36.	श्री डी.के.डी. राव		अवर सचिव (प्रशिक्षण)	26109040	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली तथा प्रबंधन विकास संस्थान, गुडगांव द्वारा संचालित दीर्घकालिक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/भारतीय प्रशासनिक प्रवेशन प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम समीक्षा समिति/समझौता ज्ञापन/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय अनुबंधों से संबंधित मामले ।	श्री बी. श्रीनिवास निदेशक (प्रशिक्षण) 26168197
37	श्री ए.बी. मेन्डोलिया		संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	26107957 26109049	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण परियोजनाएं/ए.पी.पी.ए. कार्यक्रमों और लोक नीति पर दीर्घ अवधि के घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामले	श्री विनीत पांडे निदेशक 26107960
38	श्री अरविन्द पोखरियाल		अनुभाग अधिकारी (प्रशिक्षण)	26107957	प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम से जुड़े सभी मामले	श्री विनीत पांडे निदेशक 26107960
39	श्री पी. सबनानी		वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सी.आर.)	24622461	केन्द्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' की ग्रेड वार संवर्ग संख्या से संबंधित मामले; संबंधित संवर्गों/सेवाओं में प्रगतिरोध पर अनुवर्ती कार्रवाई ।	उप-सचिव (सी.आर.) 24624235
40	श्री भीम सिंह चौहान		उप-निदेशक (राजभाषा)	23093022	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में राजभाषा के संवर्धन से जुड़े सभी मामले	श्री सुरेश पाल निदेशक (प्रशासन) 23092338
41	श्रीमती मनीषा भटनागर		अवर सचिव (प्रशिक्षण)	26107957 26109049	आई.आई.पी.ए./आई.एस.टी.एम. और प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम से संबंधित सभी मामले	श्री विनीत पांडे निदेशक

42	श्री जिले सिंह विकल	डैस्क अधिकारी (अ.भा.से.-I)	23093683	सिविल सेवा परीक्षा नियम; सिविल सेवा परीक्षा के सफल उम्मीदवारों का आबंटन; भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के डोजियर का रख-रखाव; भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (भर्ती नियम) 1954 और प्रतियोगी परीक्षा, नियमावली, 1955 द्वारा नियुक्ति; अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति/अंतर संवर्ग स्थानांतरण और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी से संबंधित नीति; चिकित्सा जाँच से संबंधित नीति, से जुड़े मामले।	26107960 श्री अश्विनी कुमार निदेशक (अ.भा.से.) 23093064
43	श्री के.के. शर्मा	डैस्क अधिकारी (ए.वी.डी.1)	23094799	सी.एस.एस./सी.एस.एस. के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामले और इससे संबंधित नीति; सी.एस.एस. अधिकारियों की सतर्कता अनापत्ति; सी.एस.एस. अधिकारियों के अभियोजन की मंजूरी के प्रस्ताव; भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन; ए.जी.बी./ओ.ई.सी.डी. की भ्रष्टाचार निरोधक पहल; सी.एस.एस. अधिकारियों से संबंधित विशेषाधिकारी सूचनाएं/उत्तर, से जुड़े सभी मामले।	श्रीमती हरजोत कौर निदेशक (सतर्कता-III) 23094637
44	श्री पन्चिन्धुप गुइते	डैस्क अधिकारी (पी.आई.सी.)	23093028	सिविलियन पदों पर सीपी भर्ती को ईष्टम करने से संबंधित नीति; विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से जाँच-पड़ताल समिति की बैठकों के आंकड़े एकत्र करना।	श्री महेन्द्र कुमार निदेशक (जे.सी.ए.) 23092589
45	श्री आर. के. गुप्ता	डैस्क अधिकारी (वेतन-डैस्क)	23094824	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन नियम; अखिल भारतीय सेवा (एल.टी.सी.) नियम; भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियमावली, 1997; अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का वेतन नियतन; पी.एस.यू./विदेश सेवा इत्यादि पर प्रतिनियुक्ति के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों से संबंधित सभी मामले।	श्री चैतन्य प्रसाद निदेशक (सेवाएं) 23093591

46	श्री बटना बनर्जी	डिस्क अधिकारी (स्था. (घ))	23094575	(i) ऐसी सेवाओं और पदों को छोड़कर, जिनके लिए संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियम, दिशा-निर्देश पृथक रूप से जारी किए गए हैं, सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू वरिष्ठता नीति संबंधी दिशा-निर्देश (ii) अनुक्रमणिका आधार पर नियुक्ति संबंधी नीति (iii) विभागीय उम्मीदवारों जैसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के निवासियों आदि कतिपय श्रेणियों के उम्मीदवारों हेतु सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधी नीति (iv) प्रक्रिया में छूट देते हुए समूह 'ग' और 'घ' पदों पर प्रतिष्ठित खिलाड़ी व्यक्तियों की नियुक्ति (v) उन अवर श्रेणी लिपिकों के टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देना जो केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के नहीं हैं से संबंधित सभी मामले।	श्री सी.ए. सुब्रामनियन निदेशक (ई.-II) 23092338
47	श्री एस.के. मोहनन्ती	अनुभाग अधिकारी (एम.एम.-I)	23093376	केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से की गई संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्तियाँ; अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति से अधिकारियों के अधिक ठहराव/विस्तार/समय पूर्व प्रत्यापन का नियमितीकरण; सिविल सेवा बोर्ड की बैठकें आयोजित करना और इसकी कार्य-सूची तैयार करना।	श्री रचना शाह निदेशक (एस.एम.) 23092187
48	श्री हरीश चन्द्र राय	अनुभाग अधिकारी (अ.भा.से.-संवर्ग डैस्क)	23094824	भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली; (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, संयुक्त संवर्ग नियमों से संबंधित सभी मामले।	श्री चैतन्य प्रसाद निदेशक (सेवाएं) 23093591
49	श्री रमा कान्त सिंह	अनुभाग अधिकारी (अ.भा.से.-पेंशन डैस्क)	23094824	भारतीय प्रशासनिक सेवा (समूह बीमा) नियमावली, 1981 के तहत बचत/बीमा राशि का भुगतान; अखिल भारतीय सेवा (डी.सी.आर.बी.) नियमावली के अंतर्गत मामले; अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संशोधन) विनियम तथा नियम; उपर्युक्त नियमों में संशोधन।	श्री चैतन्य प्रसाद निदेशक (सेवाएं) 23093591
50	श्रीमती शान्ति पुरी	अनुभाग अधिकारी (पी.आर.)	23092697	संयुक्त सचिव ग्रेड के भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का रख-रखाव व अभिरक्षा और प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध इन अधिकारियों के	श्री भारत प्रसाद निदेशक (पी.आर.) 23093298

					अभ्यावेदन/जापन से जुड़े सभी मामले।	
51	श्री सईद इमरान अहमद	अनुभाग अधिकारी (एम.एम.-I)		23093376	केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय समूह 'क' सेवा के अधिकारियों की अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक स्तर पर नियुक्ति/तैनाती/प्रतिनियुक्ति से संबंधित सभी मामले।	श्रीमती त्रिशलजीत सेठी निदेशक (एम.एम.) 23092942
52	श्री आर. के. खरब	अनुभाग अधिकारी (एम.एम.-II)		23092379	संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के स्तर पर और सचिवालयी पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति; विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थित पदों; संगठित सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में डी.आई.जी. स्तर तक के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति।	श्रीमती त्रिशलजीत सेठी निदेशक (एम.एम.) 23092942
53	श्रीमती उर्मिला रावत	अनुभाग अधिकारी (वेतन-I)		23092030	वेतन का निर्धारण/वेतन का स्टेप अप करना/रूकी हुई वेतन वृद्धियां/वेतन संबंधी मामलों पर मूल नियम से संबंधित सभी मामले।	श्रीमती रीता माथुर निदेशक (वेतन) 23093846
54	श्री जे. सी. भट्ट	अनुभाग अधिकारी (वेतन-II)		23092030	सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के बाद पुनर्नियोजन पर प्रतिनियुक्ति/वेतन का निर्धारण, वेतन आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर नियुक्तियों का संयोजन/वेतन संशोधन, एन.बी.आर. के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति।	श्रीमती रीता माथुर निदेशक (वेतन) 23093846
55	श्री जी. मुखोपाध्याय	अनुभाग अधिकारी (कैन्टीन)		24694349	मंत्रालयों/विभागों में विभागीय कैन्टीनों की स्थापना; दिशा-निर्देश तैयार करने; कैन्टीनों के कर्मचारियों के संबंध में सेवा मामलों से संबंधित सभी नीतिगत मामले।	श्री आर. पी. नाथ निदेशक एवं मुख्य कल्याण अधिकारी 24625562
56	श्री संजय कुमार	अनुभाग अधिकारी (स्था.-ख) (डैस्क-I)		23092797	संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित सभी मामले	श्री सी.ए. सुब्रामनियम, निदेशक (ई.II) 23093180
57	श्री घन शम सिंह	सहायक सचिव (सी.सी.एस.सी.एस.बी.)		24624204	अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंट; राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता; दिल्ली में अन्तरमंत्रालयी टूर्नामेंट; खेलकूद सामग्री और पुरस्कारों से संबंधित मामले	श्री आर. पी. नाथ निदेशक एवं मुख्य कल्याण अधिकारी 24625562

58	श्री के. सुरेश कुमार	अवर सचिव (सी.एस. I)	24629412	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/अनुभाग अधिकारी ग्रेड, अवर सचिवों के चक्रानुक्रम स्थानांतरणों से संबंधित सभी मामले और अन्य सभी विविध मामलों/नीति/केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित सभी प्रशिक्षण मामले	श्री आर. के. ओझा उप सचिव (सी.एस. I) 24629411
59	श्री दीपक इसरानी	अवर सचिव (सी.एस. I)	24629413	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिवों/निदेशकों और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के संग्रह से संबंधित सभी मामले	श्री आर. के. ओझा उप सचिव (सी.एस. I) 24629411
60	श्री शौकत अली	डैस्क अधिकारी (सी.एस. I)	24629414	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव स्तर के अधिकारियों से संबंधित सभी मामले	श्री आर. के. ओझा उप सचिव (सी.एस. I) 24629411
61	श्रीमती बिमला चड्ढा	अनुभाग अधिकारी (सी.एस.-IV)	24622706	केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के यूनियन/संघों के पंजीकरण से संबंधित सभी मामले	श्रीमती इंदिरा मूर्ती उप सचिव (सी.एस. IV) 24624722
62	श्रीमती संविता पांथी	अनुभाग अधिकारी (सी.एस. III)	24626024	अधिशेष समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के अधिकारियों/कर्मचारियों की पुनः तैनाती से संबंधित मामले; विशेष स्पष्टीकरण सेवानिवृत्ति लेने वालों/सेवानिवृत्त होने वालों के बारे में रेकॉर्ड का रख-रखाव	श्री राज किशोर उप सचिव (आर.आर.) 24624821
63	श्री. जी.एस. पुण्डीर	अवर सचिव (सी.एस.-II)	24623107	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/उच्च श्रेणी लिपिक/लिपिक ग्रेड/मंत्रियों के दैनिक स्टफ से संबंधित सभी मामले	एम. सी. लथर उप सचिव (सी.एस. II) 24622365
64	श्रीमती वीना खोसला	अनुभाग अधिकारी (सी.आर.डी.)	24622461	केन्द्रीय सचिवालय सेवा/संवर्गों की संवर्ग समीक्षा से संबंधित मामले; नियमित रूप से गठित केन्द्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारियों की आवधिक समीक्षा; गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड के बारे में नीति और सामान्य आदेश	उप सचिव (सी.आर.)
65	श्री वी. के टिरकी	अनुभाग अधिकारी (एस.आर.एस.)	24626024	राज्य पुनर्गठन द्वारा प्रस्तावित बिहार राज्य में सेवा कर रहे कर्मिकों (अखिल भारतीय सेवा से अलग) का उत्तरवर्ती राज्य	श्री वी. पदेन्ना उप सचिव

				झारखण्ड में नियतन और उनसे संबंधित अन्य मुद्दे तथा बिहार सलाहकार समिति से संबंधित मामले	(एस.आर.) 24623711
66	श्रीमती अंजलि आनन्द	अनुभाग अधिकारी (एस.आर.)	24626024	राज्य पुनर्गठन द्वारा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य में सेवा कर रहे कार्मिकों (अखिल भारतीय सेवा से अलग) का उत्तरवर्ती राज्य उत्तराखण्ड में नियतन और उनसे संबंधित अन्य मुद्दे तथा उत्तर प्रदेश सलाहकार समिति से संबंधित मामले	श्री वी. पट्टेन्ना उप सचिव (एस.आर.) 24623/11
67	श्री एम. एस. शर्मा	अवर सचिव (एस.आर.)	24698708	राज्य पुनर्गठन द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश राज्य में सेवा कर रहे कार्मिकों (अखिल भारतीय सेवा से अलग) का उत्तरवर्ती राज्य छत्तीसगढ़ में नियतन और उनसे संबंधित अन्य मुद्दे तथा मध्य प्रदेश सलाहकार समिति से संबंधित मामले	श्री वी. पट्टेन्ना उप सचिव (एस.आर.) 24623711
68	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई. सेल)	23093022	सूचना का अधिकार अधिनियम/संशोधन से संबंधित सभी नीति संबंधी मामले, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमों का बनाना और केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित मामले	सुश्री अनुराधा एस. चगती ओ.एस.डी (आर.टी.आई.) तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री के.जी.वर्मा, निदेशक (आर.टी.आई.)

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 3 अगस्त 2007

शुद्धिपत्र

सं. 13016/02/2006-प्रशिक्षण.--इस विभाग की दिनांक 16.07.2007 की समसंख्यक अधिसूचना में शब्द "5 वर्षों की अवधि के लिए" हटा दिया जाए और तारीख '25.06.2005' को '25.06.2007' पढ़ा जाए।

मनीषा भटनागर, अवर सचिव (प्रशिक्षण)

दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. 44/2007/(फा.सं.सी-50/74/2006-प्रशा.-II).--सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 12 के तहत भारत सरकार के निर्णय सं. 2 के अनुसार श्री हरि ओम तिवारी, महानिदेशक सेवा कर, मुम्बई को केवल पुनरीक्षण कार्य के लिए मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई-I का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

सं. 13016/02/2006-प्रशिक्षण-I.--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, श्री वेद प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ लेखाकार, भुगतान और लेखा कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को 06.07.2007 (पूर्वाह्न) से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (लेखा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनीषा भटनागर, अवर सचिव (प्रशिक्षण)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 22/2007/(फा.सं.ए.-38012/09/2007-प्रशा.-II).--राष्ट्रपति, श्री बी एस गानु, मुख्य सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर द्वारा सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए दिए गए नोटिस को दिनांक 27.06.2007 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 18 जून 2007

शुद्धिपत्र

सं. 34/2007/(फा.सं.ए.-22011/01/2007-प्रशा.-II).--दिनांक 11 जून, 2007 का आंशिक संशोधन करते हुए, श्री जे. के. बत्रा, महानिदेशक (सेफगार्ड एण्ड ट्रेड फैसिलिटेशन), नई दिल्ली को दिनांक 04.06.2007 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक महानिदेशक, निर्यात संवर्धन, नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2007

शुद्धिपत्र

सं. 23/2007/(फा.सं.ए.-22011/14/2007-प्रशा.-II).--दिनांक 25 मई, 2007 का आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-III (अपील) को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोलकाता-II (अपील) पढ़ा जाए।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

सं. 23/2007/(फा.सं.ए.-22011/14/2007-प्रशा.-II).--सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 12 के तहत भारत सरकार के निर्णय सं. 2 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 25.05.2007 से अगले आदेशों तक निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यभार सौंपने हेतु आदेश दिया जाता है।

क्रम सं	रिक्त पद (पदों)	तैनात किये गये अधिकारी को सौंपा गया अतिरिक्त कार्यभार
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-III (अपील)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर (अपील)
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-IV (अपील)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रांची (अपील)
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मंगलौर (अपील)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बंगलौर-III (अपील)
4.	सीमा शुल्क, जामनगर (अपील)	सीमा शुल्क, मुम्बई-II (अपील)
5.	सीमा शुल्क, अहमदाबाद (अपील)	सीमा शुल्क, मुम्बई (अपील) (एयरपोर्ट)
6.	सीमा शुल्क, चैन्ने (एयरपोर्ट और ए सी सी) (अपील)	सीमा शुल्क, बंगलौर (अपील)
7.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कालीकट	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. 45/2007/(फा.सं.ए.-22011/02/2007-प्रशा.-II).--सी सी एस (सी सी ए) नियमावली 1965 के नियम 12 के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय सं. 2 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री इंद्रजीत दासगुप्ता, आयुक्त (न्यायनिर्णयन), बंगलौर-II, दिनांक 13.07.2007 से नियमित पदधारी के पद ग्रहण करने तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. /2007(फा.सं.ए-32014/2/2002-प्रशा.1क).--व्यय विभाग, संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 12.07.2007 और 16.07.2007 के का.ज्ञा.सं.ए. 32014/3/2007-सी.ए.एस. के अनुसरण में, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (के.स. आशु. सेवा) के आशुलिपिक ग्रेड क और ख (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31.12.2007 तक छः मास की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्रम सं.	नाम
	सर्वश्री/श्रीमती
1.	एन. एस. शर्मा
2.	तरुण कुमार
3.	प्रवीण सिंह
4.	आर. श्रीकांत
5.	एम. एस. नारायण मूर्ति
6.	श्याम सुन्दर भाटिया
7.	कमलेश लूथरा
8.	बलचिन्दर सिंह
9.	मंगत राम
10.	वन्दना सिंह
11.	एन. अलामल मंगई
12.	के. कुमार
13.	भगत सिंह
14.	संसार चंद बिरदी

2. अन्य सभी शर्तें बिना किसी परिवर्तन के पहले की तरह ही लागू होंगी।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. ए-19012/20/2007-प्रशा.1ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की कनिष्ठ समय वेतनमान अधिकारी सुश्री रेणुका मिश्रा (आईईएस) को दिनांक 09 जुलाई 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2007

सं. ए-19011/269/2007-स्था.--राष्ट्रपति, श्रीमती सुकृति लिखी, आईईएस (हरियाणा : 93) को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के

उनके द्वारा वर्तमान में संभाले जा रहे उप सचिव के पद को व्यक्तिशः आधार पर निदेशक के रूप में पुनः पदनामित करके, 15,100-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में 24 जुलाई, 2007 पूर्वाह्न से उनकी पदावधि की शेष अवधि जो अब 19.04.2012 तक होगी, के लिए, अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं। श्रीमती सुकृति लिखी, निदेशक की केन्द्र में पदावधि 20.04.2007 से प्रारम्भ हुई है।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

सं. ए-19011/233/2003-स्थापना.--राष्ट्रपति, श्री जी. सी. चतुर्वेदी, आईईएस (यूपी : 77), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.07.2007 के पत्र सं. 4/10/2007-ईओ (एसएम-1) के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग से 31 जुलाई, 2007 के अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2007

सं. पी.एफ.सी.ए.(341)/प्र.-I.--राष्ट्रपति, भारतीय लागत लेखा सेवा में श्री जगदीश गोविन्द नागवेकर का दिनांक 23 मई 2007 से उप निदेशक (लागत) के पद से इस्तीफा स्वीकार करते हैं।

एम. के. साहू, उप निदेशक (लागत)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. ए-11019/2/2007-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री असीम कुमार भट्टाचार्य को दिनांक 03.04.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में महालेखापाल (ए. एण्ड ई.), पश्चिमी बंगाल, कोलकाता के कार्यालय में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. 9/7/2006-प्रशासन.--इस विभाग की दिनांक 08 मार्च 2007 की अधिसूचना सं. 9/7/2006-प्रशा. के अनुक्रम में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.06.2007 के का.ज्ञा.सं. 5/8/2006-सीएस-II के अनुसार तथा व्यय विभाग (संवर्गनियंत्रण अनुभाग) के दिनांक 12.07.2007 के का.ज्ञा.सं. ए-32014/3/2007-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा,

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' के आशुलिपिक श्री राम चरण की, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 01.07.2007 से 31.12.2007 तक, छः माह की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जाता है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के अन्य निबन्धन तथा शर्तें, जो दिनांक 28.08.2006 की समसंख्यक अधिसूचना में उल्लिखित हैं, अपरिवर्तित रहेंगी।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. पीएफजी (840)/02-प्रशा.-I--इस मंत्रालय के दिनांक 19.07.2002 के अधिसूचना सं. ए-12023/1/2002-प्रशा.-I के क्रम में तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जून, 2007 के का.ज्ञा.सं. 14/1/2002-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में वर्तमान में कारपोरेट कार्य मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत श्री पवन के. कुमार, आईआरएस (आईटी : 90) के कार्यकाल को दिनांक 17.07.2007 से आगे तीन माह की अवधि अर्थात् दिनांक 17.10.2007 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.03.1998 के का.ज्ञा.सं. 2/8/97-स्था. (वेतन-II) के अनुसार वह इस विस्तारित अवधि के दौरान किसी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

आर. सी. टली, अवर सचिव

#### वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए-42014/2/2007-संवर्ग.--राष्ट्रपति, श्री बी. सी. पंत, जो नियमित ग्रेड-I अधिकारी हैं (जन्मतिथि : 01.01.1948, सी.एस.एल. सं. 3152) और वर्तमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपसचिव हैं, को वर्ष 1999 की प्रवरण सूची पर वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सलैक्शन ग्रेड (उपसचिव) पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

#### विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. 14/2007/(फा.सं. 6/1185/77/मा.सं.वि.-1)3628.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस कार्यालय में अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, श्री सूरत सिंह 31.07.2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं. 15/2007(फा.सं. 6/2021/93/मा.सं.वि.-1)3624.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी, श्री महेन्द्र पाल 31.07.2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं. 16/2007(फा.सं. 6/2055/94/मा.सं.वि.-1)3632.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस कार्यालय में निजी सचिव, श्री गुरुमुख सिंह 31.07.2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं. 17/2007(फा.सं. ए-12023/1/2006-मा.सं.वि.-1)/3636.--दिनांक 08.08.2006 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विदेश व्यापार महानिदेशालय में 5,500-175-9,000/- रुपये के वेतनमान में अनुभाग प्रमुख के पदधारक निम्नलिखित आठ अधिकारियों को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में विदेश व्यापार विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया जाता है:--

1. श्रीमती मारगरेट जोस
2. श्री एविल डी मेलो
3. श्री पी. के. भौमिक
4. श्री हारून बिलाल
5. श्रीमती बी. विजयलक्ष्मी
6. श्रीमती एल. श्रीलक्ष्मी
7. श्री एस. सुन्दरामन

2. सक्षम प्राधिकारी ने श्रीमती के. ललिता अनुभाग प्रमुख (एस.एच.) को भी 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर विदेश व्यापार विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति का अनुमोदन किया है तदर्थ प्रोन्नति सम्बंधित प्राधिकारी को नियमित नियुक्ति के दावे का कोई अधिकार नहीं देगी और की गई तदर्थ सेवा की गणना ग्रेड में वरीयता अथवा प्रोन्नति हेतु पात्रता आदि अथवा इसी तरह के किसी अन्य लाभ के लिए, नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त प्रोन्नतियों कार्यालय आदेश सं. पी.टी.-12/2007 दिनांक 31.07.2007 में उल्लिखित उनके तैनाती के स्थान पर उक्त पद का पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

#### पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. पी-23011/1/2006-विपणन.--केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 4 की उप धारा (1) के अनुसार, एतद्द्वारा डा. वाई. पी. सी. डांगे, को

31 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के सदस्य (विधिक) के रूप में नियुक्त करती है।

प्रेम कुमार, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. 5(6)/2006-स्थापना.--इस समय इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत श्री अनिल संत, आईएएस (यूपी : 88) को उनके मूल संवर्ग में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्ति होने पर सक्षम प्राधिकारी ने बिना "कूलिंग ऑफ" की बढ़ाई गई अवधि संबंधी प्रावधानों के उनके समय पूर्व प्रत्यावर्तन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

तदनुसार, श्री अनिल संत को अपराह्न 9 जुलाई, 2007 से एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए-32013/1/2005-प्रशासन.--राष्ट्रपति ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में श्री आर. एल. मीणा की संयुक्त सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 18.07.2007 से अगले 6 माह की अवधि अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगला आदेश जारी किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।

डी. द्वारकानाथ, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए-19018/437/79-प्रशा.(राज.).--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जॉन मथई, उप निदेशक (खाद्य) इस संगठन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संस्थान, त्रिचूर से दिनांक 30.06.2007 (अपराह्न) को सेना निवृत्त हो गए हैं।

महिन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. ए-32016/16/2004-प्रशा.(अराज.).--विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम) लघु उद्योग विकास संगठन के 13 तकनीकी ट्रेडों के निम्नोक्त लघु उद्योग संवर्धन अधिकारियों को सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (13 तकनीकी ट्रेड) (ग्रुप ख राजपत्रित) में उन्नयन, संविलय तथा पुनः

पदनामित पद में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 17.07.2007 से अर्थात् उस दिन से जिससे उन्नयन वेतनमान प्रभावी हो गया है या भर्ती नियमानुसार प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से निम्नोक्त दिए गए ब्यौरे अनुसार सहर्ष रखते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियोजन की तिथि
1	2	3
I सहायक निदेशक ग्रेड-II (यांत्रिकी)		
1.	एस. नरसिम्हा मूर्ति	17.07.2004
2.	के. पी. वर्मा	17.07.2004
3.	के. के. फण्डा	17.07.2004
4.	बी. एन. कपूर	17.07.2004
5.	बारू राम	17.07.2004
6.	देवेन्द्र कुमार दीक्षित	17.07.2004
7.	सत्य प्रकाश	17.07.2004
8.	राकेश कुमार भार्गव	17.07.2004
9.	आर. पी. चौधरी	17.07.2004
10.	मंजीत सिंह	17.07.2004
11.	विजय गार्गे	17.07.2004
12.	राज कुमार	17.07.2004
13.	के. एन. द्विवेदी	17.07.2004
14.	भीम राव चण्डोकर	17.07.2004
15.	वी. एम. मोहनन नाम्बिसन	17.07.2004
16.	उदय कुमार अनंत भट्ट	17.07.2004
17.	स्टेनी रिचर्ड क्रास्टा	17.07.2004
18.	चन्द्र मल	17.07.2004
19.	ए. एलांगोवन	17.07.2004
20.	नगांगोम मनीरतन सिंह	17.07.2004
21.	अशोक कुमार मल्होत्रा	17.07.2004
22.	एन. सी. भौर्य	17.07.2004
23.	केशरी प्रसाद	17.07.2004
24.	एम. गोविन्द राज	17.07.2004
25.	अलूरी सुरेश	17.07.2004
26.	अशोक कुमार मुखर्जी	17.07.2004
27.	रवि शंकर मिश्रा	17.07.2004
28.	दिनेश कुमार अग्रवाल	17.07.2004

1	2	3
29.	भवानी प्रसाद बेहेरा	17.07.2004
30.	इगनाटिस टिकी	17.07.2004
31.	किशोर बी. इरपाटे	17.07.2004
32.	जगदीश प्रसाद मित्तल	17.07.2004
33.	नाजमी अहमद रज़ा	17.07.2004
34.	धनंजय आर. जौहरी	17.07.2004
35.	फूल सिंह	17.07.2004
36.	हरे कृष्णा चौधरी	17.07.2004
37.	सत पाल	17.07.2004
38.	रामाकृष्णा वी.	17.07.2004
39.	बिनय भूषण सहाय	17.07.2004
40.	बी. एस. होसामनी	17.07.2004
41.	सोमा मुंडू	17.07.2004
42.	वजीर सिंह	17.07.2004
43.	राजेन्द्र सिंह दहिया	17.07.2004
44.	जितेन्द्र कुमार सिन्हा	17.07.2004
45.	एल. कुन्दन	17.07.2004
46.	दोन किरन कुमार	17.07.2004
47.	किशोर चन्द बक्शी	17.07.2004
48.	वडकाथ परमेश्वरन	17.07.2004
49.	सुरेश बाबू पी. वी.	17.07.2004
50.	ओम प्रकाश चकोले	17.07.2004
51.	बिजेन्द्र कुमार	17.07.2004
52.	मंगली प्रसाद	17.07.2004
53.	दया राम	17.07.2004
54.	एस. श्रीनिवास	17.07.2004
55.	ओंकार सरन सिन्हा	17.07.2004
56.	तपन कुमार बनर्जी	17.07.2004
57.	वी. युवाराज	17.07.2004
58.	ज्ञान सिंह	08.04.2005
59.	के. शिवप्पा	03.12.2005
60.	के. अपालाराजू	10.10.2005
61.	एम. भास्कर	18.08.2006

1	2	3
62.	ए. पी. दत्तरदार	06.10.2006
63.	गिरीश कुमार	06.08.2006
II. सहायक निदेशक ग्रेड-II (इलैक्ट्रिकल)		
64.	जे. थॉमस	17.07.2004
65.	जोसफ कुंजू के.	17.07.2004
66.	मो. उमर फारूख	17.07.2004
67.	सतिन्द्र सिंह	17.07.2004
68.	दीपक कुमार राभा	17.07.2004
69.	एम. शंताराम	17.07.2004
70.	ब्रह्म प्रकाश	17.07.2004
71.	ब्रिज पाल सिंह	17.07.2004
72.	नवीन कुमार	17.07.2004
73.	अशोक कुमार जनार्दन	17.07.2004
74.	रामजी मिश्रा	17.07.2004
75.	जी. वेंकटराव नायडू	17.07.2004
76.	खुनेकर एम. गोविन्द राव	17.07.2004
77.	ब्रिजेश मोहन सक्सेना	17.07.2004
78.	राम पाल सिंह	17.07.2004
79.	सिद्धार्थ शंकर बरूआ	17.07.2004
80.	अनिल कुमार सिंह	17.07.2004
81.	मेवा लाल	17.07.2004
82.	प्रफुल्ल उमारे	17.07.2004
83.	डी. ए. पोतदुखे	25.07.2004
III. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (इलेक्ट्रॉनिक्स)		
84.	राकेश कुमार	17.07.2004
85.	वाई. रविन्द्रन	17.07.2004
86.	पी. के. दास	07.03.2005
IV. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (धातुकर्म)		
87.	टी. पी. विजय कुमार	17.07.2004
88.	आर. वी. राजगोपाल	17.07.2004
89.	सुनील कुमार	17.07.2004
90.	वी. रंगाराव गोबेरू	17.07.2004
91.	अजय शर्मा	17.07.2004

1	2	3
92.	प्रभाकर प्रसाद	17.07.2004
93.	सुनील रामदास खुजनारे	17.07.2004
94.	अनिल जी. राव तेलंग	17.07.2004
95.	सुभाष इंगेघार	17.07.2004
96.	वाई. बी. भगेल	17.07.2004
97.	आर. विजय कुमार	17.07.2004
98.	जंघालय नागेश	17.07.2004
99.	धनराज एम. गोसावी	17.07.2004
100.	विद्याधर धिजय खरे	17.07.2004
101.	कु. मैत्रेयी तालपात्र	17.07.2004
102.	नरेश एच. मानवाटकर	17.07.2004
103.	मनोज नारायण गिरामे	17.07.2004
104.	एन. एम. करूपार्थी	17.07.2004
105.	रमेश पुरीमेटला	17.07.2004
106.	कामेश्वर थादव	17.07.2004
107.	विनय कुमार	17.07.2004
V. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (हौजरी)		
108.	एस. के. भटनागर	17.07.2004
109.	बरिन्द्र सिंह	17.07.2004
110.	कुलदीप सिंह	17.07.2004
111.	वी. ए. अंजनी कुमार	01.12.2005
VI. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (केन मेकिंग)		
112.	विशु पाद दासगुप्ता	17.07.2004
VII. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (टेलरिंग)		
113.	गोर्दन दास	17.07.2004
VIII. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (रसायन)		
114.	अमरीश कुमार जैन	17.07.2004
115.	डा. जय प्रकाश पाठक	17.07.2004
116.	पी. सी. हल्दर	17.07.2004
117.	जगदीश नारायण मिश्रा	17.07.2004
118.	एस. सी. शर्मा	17.07.2004
119.	शिवराज सिंह गंगवार	17.07.2004
120.	शामल कुमार भक्ता	17.07.2004

1	2	3
121.	लबन्य कुमार लाखर	17.07.2004
122.	उत्पल रॉय चौधरी	17.07.2004
123.	गौरी शंकर खंडेलवाल	17.07.2004
124.	अलक कुमार मित्रा	17.07.2004
125.	टी. आर. सत्यकीर्ति	17.07.2004
126.	चन्दूरी एस. सुधाकर	17.07.2004
127.	मनोज कुमार	17.07.2004
128.	सुनील कुमार अग्निहोत्री	17.07.2004
129.	तुषार कांति चक्रवर्ती	17.07.2004
130.	महेश कुमार शर्मा	17.07.2004
131.	दर्शन सिंह कण्डारी	17.07.2004
132.	डा. अमित चन्द्र पंत	17.07.2004
133.	राजेश कुमार	17.07.2004
134.	सुबास कुमार साहू	17.07.2004
135.	कुपुसैमी पांडियन	17.07.2004
136.	सुनील कुमार	17.07.2004
137.	डा. अजय कुमार मिश्रा	17.07.2004
138.	संदीप कुमार अग्रवाल	17.07.2004
139.	हिर्देश कुमार शर्मा	17.07.2004
140.	रजत कुमार पायने	17.07.2004
141.	ओम पाल सिंह	17.07.2004
IX. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (मैटल फिनिशिंग)		
142.	शाहूद आलम	17.07.2004
143.	नैपाल सिंह	17.07.2004
144.	सुभाष चन्द	17.07.2004
X. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (कांच एवं मृत्तिका)		
145.	अला कोटि रेड्डी	17.07.2004
146.	शशी भूषण सिंह	17.07.2004
147.	वेगुरू श्रीधर रेड्डी	17.07.2004
148.	एन. श्रीनिवासुलू	17.07.2004
149.	रिशी पाल सिंह	17.07.2004
150.	के. कंडासैमी	17.07.2004
151.	पी. बी. परमार	17.07.2004

1	2	3
152.	जयदेव पॉल	17.07.2004
153.	एच. बलदेव सिंह	17.07.2004
154.	धीर सिंह	17.07.2004
155.	के. वेंकट राव	17.07.2004
156.	कुंदन लाल	17.07.2004
157.	जे. पी. राजेन्द्रन	17.07.2004
158.	बलभीम जवालगौ	17.07.2004
159.	सीतानाथ मुखोपाध्याय	17.07.2004
160.	एस. एल. नरसिम्हा कुमार	17.07.2004
161.	देवेन्द्र सिंह तोमर	17.07.2004
162.	एन. शिवलिंगम	17.07.2004
163.	सुकांत कुमार मण्डल	17.07.2004
164.	ए. पूर्णानिधा प्रभु	17.07.2004
165.	राजेश भट्टाचार्य	17.07.2004
166.	महेश चन्द	17.07.2004
167.	सुन्दरा शेरीगारा एम.	17.07.2004
168.	विजय सिंह	28.01.2005
XI. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (चर्म एवं पादुका)		
169.	अशोक एस. ट्रायम्बके	17.07.2004
170.	टी. गुरुस्वामी	17.07.2004
171.	बिपिन चन्द्र सिंह बिष्ट	17.07.2004
172.	एस. आर. चन्द्रशेखरन	17.07.2004
173.	प्रदीप कुमार शर्मा	17.07.2004
174.	देबाशीष घोष	17.07.2004
175.	जगमिन्दर सिंह	17.07.2004
176.	संतोष दास	17.07.2004
177.	पी. के. सिंघल	17.07.2004
178.	सुदीप कुमार सेन	17.07.2004
179.	राकेश चन्द्र	17.07.2004
180.	काली चरन भुक्श	17.07.2004
181.	राजीव कुमार	17.07.2004
182.	मोहिन्द्र कुमार	17.07.2004
183.	दलजीत सिंह	17.07.2004

1	2	3
184.	जी. पी. अग्रवाल	17.07.2004
185.	किशोर तात्या केलकर	17.07.2004
186.	शकील अहमद	17.07.2004
187.	सनातन साहू	17.07.2004
XII. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण)		
188.	आलोक कुमार कविराज	17.07.2004
189.	के. जी श्रीनाथ	17.07.2004
190.	त्रिलोक गुप्ता	17.07.2004
191.	ईश्वर सिंह अहलावत	17.07.2004
192.	राजशेखर अवस्थी	17.07.2004
193.	हरपाल सिंह	17.07.2004
194.	सुधीर गौतम	17.07.2004
195.	सुबरा कुमार दास	17.07.2004
196.	किरण कुमार गोयल	17.07.2004
197.	सरोज कुमार रथ	17.07.2004
198.	महावीर सिंह तेवतिया	17.07.2004
199.	करुण कुमार	17.07.2004
200.	दुर्गा चरण मिश्रा	17.07.2004
201.	डोईफोड पी. तुलसीराम	17.07.2004
202.	विश्व बिहारी साहू	17.07.2004
203.	प्रदीप कुमार मिश्रा	17.07.2004
204.	पी. के. सरकार	17.07.2004
205.	आर. एस. वर्मा	17.07.2004
206.	पी. वेंकटचलम	17.07.2004
207.	श्रीमती आर. शक्ति रानी	17.07.2004
208.	गौतम पौद्धार	17.07.2004
209.	मनबेन्द्र दत्ता	17.07.2004
210.	योगेन्द्र पांडे	17.07.2004
211.	एच. एस. लेटोजम	17.07.2004
212.	के. मचाराजा	17.07.2004
213.	दिलीप संधु कंधारे	17.07.2004
214.	कैलाश चन्द मीना	17.07.2004
215.	रघु राम गावरा	17.07.2004

1	2	3
216.	के. वी. रवि कुमार	17.07.2004
217.	मुकेश चन्द्र माथुर	13.06.2005
218.	राकेश कुमार चौधरी	13.06.2005
219.	प्रसाद प्रहलाद कुलकर्णी	25.07.2004
220.	एम. वी. सुधीर कुमार	17.07.2006

### XIII. सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (खाद्य)

221.	अरविन्द कुमार ओझा	17.07.2004
222.	सुनील कुमार पांडे	17.07.2004
223.	मार्टिन पी. चाको	17.07.2004
224.	संजय निगम	17.07.2004

एस. वी. एन. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशासन)

### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए-19011/08/1974-सीएमटी.--राष्ट्रपति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (एफ एंड वी पी) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए-19015/03/03-प्रशा.1(ए).--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में श्रीमती रुक्मिणी श्रीनिवासन, निजी सचिव को अधिवर्षिता की आयु में पहुँचने पर 31 जुलाई, 2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

### (बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. ए-12011/01/2006-स्था.--राष्ट्रपति श्री विरेन्द्र कपूर को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन वेतनमान (उप सचिव) में नियुक्ति के लिए वर्ष 2000 की चुनिंदा सूची में उनके समावेशन के अनुक्रम में 1 जुलाई 2000 के प्रभाव से और अगले आदेशों तक उप सचिव (सीएसएस) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. अग्रवाल, अवर सचिव

### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. ए-32012/2/2001-पी-II.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 मार्च, 2007 सं. 5/8/2006-सीएस.-II के अनुसरण में, जल संसाधन संवर्ग के श्री एम. एस. भाकुनी, आशुलिपिक ग्रेड 'सी' केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक 'ए' एवं 'बी' (संविलीन) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव पदनामित) के रूप में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 10 जुलाई, 2007 से दिनांक 31.12.2007 तक की अवधि के लिए, अथवा के.स.आ. सेवा के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "ए एवं बी" (संविलीन) के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करती है :--

(i) यह तदर्थ नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा चयन सूची में नाम सम्मिलित करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ए एवं बी" (निजी सचिव) की वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु दावा करने का हक नहीं देती है।

(ii) बिना कारण बताए यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

सं. ए-32012/2/2001-पी-II.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.06.2007 सं. 5/8/2006-सीएस.-II के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिकों ग्रेड-"सी" को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आशुलिपिक ग्रेड "ए एवं बी" (संविलीन) (पदनाम- निजी सचिव) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सामने अंकित अवधि तक तदर्थ नियुक्ति की अवधि या आशुलिपिक ग्रेड "ए एवं बी" केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	सेवा विस्तार की अवधि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	श्रीमती नीलम तलवार	01.07.2007 से 31.12.2007
2.	श्रीमती सुषमा चोपड़ा	01.07.2007 से 31.12.2007
3.	श्रीमती उषा रानी सेठी	01.07.2007 से 31.12.2007
4.	विजय कुमार	01.07.2007 से 31.12.2007
5.	श्रीमती अनुराधा निपानी	01.07.2007 से 31.12.2007

1	2	3
6.	आर. सी. सेठ	01.07.2007 से 31.12.2007
7.	अजय कुमार	01.07.2007 से 31.12.2007
8.	राजेश सजलानी	01.07.2007 से 31.12.2007
9.	श्याम किशोर	01.07.2007 से 31.12.2007
10.	एस. टी. मूरजीनी	01.01.2007 से 31.12.2007
11.	श्रीमती उर्मिल नांगिया	01.01.2007 से 31.12.2007
12.	सुश्री राजकुमारी	01.07.2007 से 31.12.2007
13.	वेद राम	01.07.2007 से 31.12.2007

2. यह तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करती है :—

(i) यह तदर्थ नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा चयन सूची में नाम सम्मिलित करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड “ए एवं बी” (निजी सचिव) की वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु दावा करने का हक नहीं देता है।

(ii) बिना कारण बताए तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. ए-32012/2/2006-पी-I(.)--राष्ट्रपति, श्रीमती रीता खन्ना को संशोधित सुनम्य पूरक योजना के अंतर्गत पदोन्नति देते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वैज्ञानिक “ई” के रूप में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 10.07.2007 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जुलाई 2007

सं. 17013/23/2006-भा.व.सेवा-II.--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केरल राज्य वन सेवा के नीचे उल्लिखित छः अधिकारियों को वर्ष 2003 और 2005 की चयन सूची के आधार पर 28 मई, 2007 से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का केरल संवर्ग आवंटित करते हैं।

वर्ष 2003 की चयन सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री एन. सुधीर (अन्य पिछड़ा वर्ग)	17.11.1953

वर्ष 2004 की चयन सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	के. बी. रविकुमार (अनु. जाति.)	03.06.1951
2.	पी. एस. मणि (अनु. जाति)	27.04.1951
3.	बी. आर. विजयकुमार	04.04.1955

वर्ष 2005 की चयन सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	एम श्रीधरन नायर	23.05.1952
2.	बी. पी. वर्गीस	03.03.1951

जी. देवनानी, अवर सचिव

सं. 17013/29/2006-भा.व.सेवा-II.--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, त्रिपुरा राज्य वन सेवा के नीचे उल्लिखित तीन अधिकारियों को वर्ष 2005 और 2006 की चयन सूची के आधार पर 12 जून, 2007 से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का मणिपुर-त्रिपुरा (त्रिपुरा खण्ड) संयुक्त संवर्ग आवंटित करते हैं।

वर्ष 2005 की चयन सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	समरेन्द्र दास (अनु. जाति.)	24.02.1958
2.	अरुपरतन सरमा	24.12.1958

वर्ष 2006 की चयन सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री चन्दन लाल दास (अनु. जाति)	19.03.1964

जी. देवनानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2007

सं. ए-32012/1/2006-पी-II.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/5/2007-सी.एस.-II, दिनांक 11 जुलाई, 2007 के अनुसरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में श्री जी. एल. सिबल, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव की तदर्थ नियुक्ति 31.12.2007 तक अथवा वरिष्ठ

प्रमुख निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के पद पर उपर्युक्त अधिकारी का 31.12.2007 तक तदर्थ पदोन्नति का जारी रहना पूर्णतः तदर्थ आधार पर होगा तथा यह तदर्थ नियुक्ति को वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के पद पर अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में उन्हें वरिष्ठता का दावा करने का हक नहीं है।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. ए-12025/151/2004-सी एच एस-1.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. परमानंद मधुकर को 18 मई, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. परमानंद मधुकर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, रांची (झारखण्ड) के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. परमानंद मधुकर दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2007

सं. ए-19013/11/2005-स्थापना-I.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2004-ईओ(एमएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री अमरदीप एस. भाटिया, आई.ए.एस. (नागालैंड-93) द्वारा इस समय धारित उप सचिव के पद को उनके लिए वैयक्तिक उपाय के रूप में 06.07.2007 (पूर्वाह्न) से तथा उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 23.01.2010 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के पद के रूप में पुनः नामोद्दिष्ट करते हैं।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2007

सं. ए-32013/2/2007-स्थापना-I.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/6/2007-सीएस-I(डेस्क) दिनांक 04 जुलाई, 2007 के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री देबाशीष कुमार सेनगुप्ता को 23 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से पूरी तरह तदर्थ आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी :—

- (i) तदर्थ प्रोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकारी नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ प्रोन्नति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए खत्म की जा सकती है।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. 32011/11/2006-स्था.-II.--राष्ट्रपति, श्रीमती सीमा सेठी, नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सहकारिता/ऋण), ग्रेड-I की कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (सहकारिता/ऋण) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि 22.06.2007 से 21.12.2007 तक 6 माह की अवधि के लिए या पद पर नियमित आधार पर भर्ती किए जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे सहायक निदेशक (सहकारिता/ऋण) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. 32011/2/2005-स्था.-II/स्था.-V.--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के निम्नलिखित उपायुक्तों (एनआरएम/आरएफएस) की अपर आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए या पदों पर नियमित आधार पर भर्ती किए जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :—

1. डा. जोस सी सैमुअल - 07.04.06 से 07.10.07 तक
2. श्री के. आर धंधपाणी - 08.04.06 से 30.06.06 तक

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्ण तदर्थ आधार पर है और इससे अपर आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 32011/2/2005-स्था.-II/स्था.-V.--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित सहायक आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) श्री सी. एम. पाण्डेय की उपायुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि 11.04.2006 से 10.10.2007 तक या पदों पर नियमित आधार पर भर्ती किए जाने तक, इसमें जो पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्ण तदर्थ आधार पर है और इससे उप आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के. संगयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2007

सं. 27-2731/2007-स्था.-I.--राष्ट्रपति श्री बी. बी. महापात्रा, आई. आर.एस. (सी एण्ड सीईएस-90) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 16 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए 14,300—18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 27-2732/2007-स्था.-I.--राष्ट्रपति डा. एम. सुब्बारायन को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 16 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए 12,000—375—16,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर सी.एस.एस. की चयन श्रेणी (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 27-2733/2007-स्था.-I.--राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र कुमार गाबा को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 16 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से 12,000—375—16,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर सी.एस.एस. की चयन श्रेणी (उप सचिव) पर आगामी आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. 38012/10/2007-स्था.-I.--श्री एस. के. ढल, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अधिवर्षिता आयु पूरी करके 31 जुलाई, 2007 को अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. 10-11/89-आई.एन.एम.--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर डा. एन. त्रिपाठी, निदेशक, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, कृषि एवं सहकारिता विभाग, 30.06.2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

बी. जे. भट्टाचार्य, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. 4(232)/84-कार्मिक-I.--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. ओम विकास (कर्मचारी कोड सं. 61) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 07 अगस्त 2007

सं. पीएफ/089/एनआई207-प्रशा.-I.--श्री एन. रतिनवल, वैज्ञानिक "एफ" कर्मचारी कोड सं. 089, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली का दिनांक 15 जुलाई, 2007 को निधन हो गया।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जुलाई 2007

सं. 1-3/2007-प्रशासन.--राष्ट्रपति सहर्ष कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सीएस.-I(डेस्क) के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कार्यरत श्री ए. के. अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी को तदर्थ आधार पर 10,000—325—15,200/- रुपये के वेतनमान में, 23.07.2007 (पूर्वाह्न) से डाक विभाग में सहायक महानिदेशक [सी एस एस का ग्रेड-I(अवर सचिव)] के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। कथित नियुक्ति एम.ए.नं. 2170/2006, ओ.ए.नं. 2793/2005, एम.ए.नं. 2710/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. ई आर बी-1/2007/2/36.--डॉ. वी. के. रामटेक, भारतीय रेल चिकित्सा सेवा, मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर रेल को 02.07.2007 के पूर्वाह्न से 26,000/- (निर्धारित) के वेतनमान में महानिदेशक, रेल स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 23 जुलाई 2007

सं. ई आर बी-1/2007/14/2.--रेलवे बोर्ड आशुलिपिकीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों (वेतनमान 6,500—10,500/- रु.)

को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से रेलवे बोर्ड आशुलिपिकीय सचिवालय सेवा के निजी सचिवों (वेतनमान 6,500—10,500/- रु.) के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम	निजी सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सर्वश्री		
1.	मनोज कुमार शर्मा	10.07.2007
2.	सुदर्शन कुमार शर्मा	10.07.2007
3.	सुश्री अर्चना सागर	11.07.2007
4.	हरीश कुमार	10.07.2007
5.	एम. बी. बालाजी	18.07.2007

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-1/2005/2/11.—श्री बिमल मिंज, रेलवे बोर्ड आशुलिपिकीय सचिवालय सेवा के निजी सचिव (नॉन फंक्शनल वेतनमान: 8,000—13,500/- रु.) को 11.07.2007 के पूर्वाह्न से रेलवे बोर्ड आशुलिपिकीय सचिवालय सेवा के प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान : 10,000—15,200/- रु.) के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ई(जी.पी.)2004/1/57.—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के लेखा विभाग के निम्नलिखित 15 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 26.04.2007 से भारतीय रेल लेखा सेवा (आई.आर.ए.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम
1	2
2005-06 के लिए पैनल	
पूर्व रेलवे	
सर्वश्री	
1.	सुधा कृष्ण हाज़रा (चि.रे.का. के)
2.	विष्णुपद सरकार (अ. जा.) (चि.रे.का. के)
उत्तर पश्चिम रेलवे	
1.	जे. एन. माथुर
2.	एम. एल. बोहरा
3.	एम. एच. खान
4.	राम अवतार (अ. जा.)

1	2
दक्षिण मध्य रेलवे	
सर्वश्री	
1.	डी. विजय कुमार (अ. जा.)
दक्षिण पश्चिम रेलवे	
1.	के. कनकरत्न (अ. ज. जा.)
पश्चिम मध्य रेलवे	
1.	सी. एस. सक्सेना
2006-07 के लिए पैनल	
पूर्व मध्य रेलवे	
1.	मो. अमानुल हक
पूर्व रेलवे	
1.	आलोक कुमार चटर्जी (चि.रे.का. के)
2.	सुशान्त कुमार हलदर (अ. जा.) (चि.रे.का. के)
उत्तर पश्चिम रेलवे	
1.	बलबीर सिंह
दक्षिण मध्य रेलवे	
1.	बी. वेंकट राव
पश्चिम मध्य रेलवे	
1.	आर. एच. मीना (अ. ज. जा.)

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. ई(जी.पी.)2004/1/58.—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के यातायात विभाग के निम्नलिखित 4 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 16.04.2007 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आई.आर.टी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम
1	2
2005-2006 के लिए पैनल	
उत्तर पूर्व रेलवे	
सर्वश्री	
1.	ए. हंसदा (अ. ज. जा.)
दक्षिण पूर्व रेलवे	
1.	एस. सी. बैनर्जी

1	2
पश्चिम रेलवे	
सर्वश्री	
1. एस. के. मिश्रा	
	2006-2007 के लिए पैनल
उत्तर रेलवे	
1. आर. के. एस. राठौर	

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 2 अगस्त 2007

सं. ई आर बी-1/2007/2/24.--श्री जी. आर. विज, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे बोर्ड को 16.07.2007 के पूर्वाह्न से 24,050—26,000/- रुपये के ग्रेड में अपर सदस्य (सी एण्ड आई एस), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-1/2007/2/24.--श्री विवेक सहाय, उच्च प्रशासनिक ग्रेड, भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे बोर्ड को 16.07.2007 के पूर्वाह्न से 24,050—26,000/- रुपये के ग्रेड में अपर सदस्य (यातायात परिवहन), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2004

सं. 2002/ई(जी आर)-1/10/1.--राष्ट्रपति जी भारतीय रेल लेखा सेवा के निम्नलिखित प्रोवेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री/श्री/कु.	
1.	चान्दीप सिंह	23.12.2002
2.	गोपाल कृष्णा झा	02.09.2002
3.	असावा मनोज राजगोपाल (अनंतिम)	02.09.2002
4.	रोहिता मिश्रा	23.12.2002
5.	श्रीशैल मालजे (अनंतिम)	02.09.2002
6.	विजय शर्मा	23.12.2002
7.	अग्निहोत्री सोनल मोहन	02.09.2002
8.	अखिलेश कुमार झा (अनंतिम)	23.12.2002
9.	अभिषेक कुमार (अनंतिम)	23.12.2002
10.	ओम प्रकाश	23.12.2002
11.	विक्रम कुमार (अनंतिम)	23.12.2002

1	2	3
12.	रविन्द्र प्रताप सिंह (अनंतिम)	23.12.2002
13.	लविदिया जीवन लाल (अनंतिम)	02.09.2002
14.	हरकेश मीणा	23.12.2002
15.	राहुल कपूर	02.09.2002

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था. (जी आर)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2004

शुद्धिपत्र

सं. 2002/स्था.(राज.भ)-1/10/1.--रेलवे बोर्ड की दिनांक 16.01.2004 की अधिसूचना सं. 2002/स्था.(राज.भ)-1/10/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम को हटा दिया जाये।

सर्वश्री/कु.

1. असावा मनोज राजगोपाल
2. श्रीशैल मालजे
3. रविन्द्र प्रताप सिंह
4. लविदिया जीवन लाल

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था.(जी आर)

दिनांक 1 फरवरी 2006

शुद्धिपत्र

सं. 2002/स्था.(राज.भ)-1/10/1.--रेलवे बोर्ड की दिनांक 16.01.2004 की अधिसूचना सं. 2002/स्था.(राज.भ)-1/10/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम को हटा दिया जाये।

सर्वश्री/कु.

1. अभिषेक कुमार
2. विक्रम कुमार

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था.(जी आर)

दिनांक 14 जून 2007

शुद्धिपत्र

सं. 2002/स्था.(राज.भ)-1/10/1.--रेलवे बोर्ड की दिनांक 22.07.2004 के शुद्धिपत्र सं. 2002/स्था.(राज.भ)-1/10/1 को निम्न प्रकार पढ़ा जाये :--

“रेलवे बोर्ड की दिनांक 16.01.2004 की अधिसूचना सं. 2002/स्था.(राज.भ)-1/10/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के सामने लिखे गए अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

सर्वश्री/कु.

1. असावा मनोज राजगोपाल
2. श्रीशैल मालजे
3. रविन्द्र प्रताप सिंह
4. लविदिया जीवन लाल

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था.(जी आर)

## शुद्धिपत्र

सं. 2002/स्था.(राज.भ)-I/10/1.--रेलवे बोर्ड की दिनांक 01.02.2006 के शुद्धिपत्र सं. 2002/स्था.(राज.भ)-I/10/1 को निम्न प्रकार पढ़ा जाये।

“रेलवे बोर्ड की दिनांक 16.01.2004 की अधिसूचना सं. 2002/स्था.(राज.भ)-I/10/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के सामने लिखे गए अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

सर्वश्री/कु.

1. अभिषेक कुमार
2. विक्रम कुमार

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था.(जी आर)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2007

सं. ए-32013/10/2006-ई-2.--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) वर्ग “ख” के अधिकारी श्री पुरुषोत्तम कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में कार्यपालक अभियंता केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) वर्ग “क” पद पर रुपये 10,000-325-

15,200/- के वेतनमान में दिनांक 18.07.2007 (पूर्वा.) से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

बी. ना. मिश्रा, अवर सचिव

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2007

सं. 27/2007-मि.सं.ए-38012/1/2007-प्रशा.-1.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री ब्रिजेन्द्र कुमार सैनी	26.06.2007 (अपराह्न)
2.	श्री दिनेश कुमार बौरी	02.07.2007 (पूर्वाह्न)
3.	श्री संदीप मलिक	29.06.2007 (पूर्वाह्न)

2. यह अधिकारी पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आर. सी. अरोरा, अवर सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 26th July 2007

No. A-39011/17/06-Admn.—Shri H. Sheridon Majill Fianoe, Personal Assistant of AHFQ Stenographers' Service and on deputation to President's Secretariat as Private Secretary to the President retired voluntarily from Govt. Service with effect from the forenoon of 24.07.2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th July 2007

No. RS/3(i)/2004/82-Perl.—In continuation of this Secretariat's Notification No. RS/3(i)/2004/64-Perl. dated 31st August, 2006, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri R. K. Singh, Officer on Special Duty in this Secretariat for a further period of one year w.e.f. 1st November, 2007 to 31st October, 2008 or until further orders.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS/1/2004/83-Perl.—In continuation of this Secretariat's Notification No. RS/1/2004/44-Perl. dated 26th August, 2005, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri Ravi Kant Chopra, Joint Secretary in this Secretariat for a further period of one year w.e.f. 11th November, 2007 to 10th October, 2008 or until further orders.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS/6(i)/2007/84-Perl.—The services of the following individuals, who had been appointed in the posts indicated against their names on co-terminus basis in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha (Shri Bhairon Singh Shekhawat) will stand terminated w.e.f. the afternoon of 5th August, 2007, after granting them a winding up period of 15 days w.e.f. 21st July, 2007 :—

- (i) Shri K. L. Kochar, Press Advisor
- (ii) Shri Ashok Kumar Arya, Office on Special Duty
- (iii) Shri D. N. Gupta, Senior Private Secretary

2. The services of Shri Ashok Kumar Arya and Shri D. N. Gupta, who were on deputation, will be placed back at the disposal of their parent offices, i.e. Office of the

Commissioner of Central Excise (Appeals), Ahmedabad and Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Respectively.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS/6(i)/2007/85-Perl.—The services of Shri Mahaveer Prasad Sharma, who had been appointed as Private Secretary on co-terminus and deputation basis in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha (Shri Bhairon Singh Shekhawat) will stand terminated w.e.f. the afternoon of 21st August, 2007, after granting him a winding up period of 30 days w.e.f. 21st July, 2007 and will be placed back at the disposal of his parent organisation, i.e., Rajya Sabha Secretariat.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

The 31st July 2007

No. RS/1239/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Ajit Singh, Joint Director (Security) retired from service with effect from the afternoon of the 31st July, 2007.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS/1488/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Kant Shrivastava, Deputy Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of the 31st July, 2007.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

The 1st August 2007

No. RS/3(xi)/2007/87-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri R. V. Sharma, Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad hoc basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

The 2nd August 2007

No. RS/6(i)/2007/88-Perl.—In partial modification of Notification No. RS/6(i)/2007/84-Perl. dated 30th July, 2007, the services of Shri Ashok Kumar Arya, Officer on special

Duty on co-terminus and deputation basis in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha (Shri Bhairon Singh Shekhawat) after termination w.e.f. the afternoon of 5th August, 2007 will be placed back at the disposal of his parent office, i.e., Central Board of Excise & Customs, Ministry of Finance.

(Smt.) AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

New Delhi-110001, the 3rd August 2007

No. RS/4(v)/2007/89-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Vinay Kumar as a temporary Junior Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- plus usual allowances as admissible under the rules, with effect from the forenoon of 3rd August, 2007.

K. SUDHAKARAN, Dy. Dir.

No. RS/6(i)/2007/90-Perl.—In partial modification of Notification No. RS/6(i)/2007/84-Perl. dated 30th July, 2007, the services of Shri K. L. Kochar, Press Advisor on co-terminus basis in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha (Shri Bhairon Singh Shekhawat) will now stand terminated w.e.f. the afternoon of 21st August, 2007, after granting him a winding up period of 30 days w.e.f. 21st July, 2007 instead of 5th July, 2007.

K. SUDHAKARAN, Dy. Dir.

No. RS/6(i)/2007/91-Perl.—In partial modification of Notification No. RS/6(i)/2007/85-Perl. dated 30th July, 2007, the services of Shri Mahaveer Prasad Sharma, Private Secretary on co-terminus and deputation basis in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha (Shri Bhairon Singh Shekhawat) will now stand terminated w.e.f. the afternoon of 5th August, 2007, after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. 21st July, 2007, instead of 21st August, 2007 and will be placed back at the disposal of his parent organisation, i.e., Rajya Sabha Secretariat.

K. SUDHAKARAN, Dy. Dir.

#### CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 1st August 2007

No. A-38012/1/2007-Ad.I.—On attaining the age of superannuation Shri N. C. Padhi, IPS (MP : 68), Secretary

(Security) Cabinet Secretariat, retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2007.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

#### NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st August 2007

No. A-19011/2/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Shekhar Dutt, IAS (MP : 69) (Retd.) as Deputy National Security Adviser, in the National Security Council Secretariat, for Strategic and Defence related subjects in the rank and pay of Secretary to the Government for a period of two years w.e.f. 01.08.2007 (FN) in the first instance, or until further orders, whichever is earlier.

AGRIM KAUSHAL, Dy. Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 25th July 2007

No. 19016/267/2005-Adm.III.—In continuation of Planning commission's Notification of even number dated 09.11.2005, 25.07.2006 & 09.01.2007 and in pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/20/2005-CS.II, dated 14.12.2005, 19.06.2006 & 29.12.2006 & O.M. No. 5/5/2007-CS.II, dated 11.07.2007, the President is pleased to extend the period of ad hoc promotion of Ms. Janki Venkateshwaran, Principal Private Secretary of C.S.S.S. Cadre as Sr. Principal Private Secretary in Planning Commission on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- upto 31.12.2007 or till regular Sr. PPS become available or until further orders, whichever is earlier.

The appointment of Ms. Janki Venkateshwaran to the post of Sr. Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on her to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. Principal Private Secretary of CSSS.

PREM PARKASH, Under Secy.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 11th July 2007

No. A-32013/7/2006-Admn.I(L.D.).—On the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels (Grade IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to

officiate as Deputy Legislative Counsels (Grade-III of Indian Legal Service) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of the 11th July, 2007 and until further orders :—

2. Shri Udaya Kumara and Smt. Sudha Rani Relangi, Deputy Legislative Counsels (Grade-III of Indian Legal Service) will be on probation for a period of two years with effect from 11th July, 2007.

K. V. KUMAR, Asstt. Legislative Counsel &  
B.O. (Admn.-I)

#### DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st July 2007

No. 32013/2/2007-Admn.IV(LA).—Consequent upon her placement in the Suitability List for the post of Director (CSS) for the year 2003 vide Office Memorandum No. 3/2/2006-CS.I dated 24th July, 2007 issued by the Department of Personnel and Training, the President is pleased to appoint Ms. Kiran Puri, Deputy Secretary (of CSS) in Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 24th July, 2007.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 5th July 2007

No. A-12023/2/2003-Admn.III(LA).—The President is pleased to appoint Shri T. Raman, Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal to officiate as Deputy Registrar of the Tribunal for the vacancy year 2003-04 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 21st May, 2007 and until further orders.

YASWANT SINGH, Dy. Secy.

The 19th July 2007

No. A-12023/3/2003-Admn.III(LA).—The President is pleased to appoint Prof (Mrs.) Lakshmi Jambholkar as Part-time Member of the 18th Law Commission of India with effect from the forenoon of 9th July for the period up to 31st August, 2009, i.e., till the end of the term of the 18th Law Commission.

YASWANT SINGH, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st August 2007

No. A-32013/2/2007-Ad.I(Pt.VI).—The President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries of the Central Secretariat Service as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the date indicated against their names :—

Sl No.	Name of the Officer	Yr. of suitability List of Directors	Date of appointment
1.	Shri R. K. Mitra	2003	24.07.2007 (FN)
2.	Shri R. K. Singh	2003	24.07.2007 (FN)

J. B. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110001, the 27th July 2007

No. 24012/6/2007-AIS(II).—The President is pleased to accept the resignation of Ms. Esther Ninghauvung Hanghal, IAS (Probationer) 2006 batch, from the Indian Administrative Service with effect from the date of issue of this notification.

CHAITANYA PRASAD, Dir. (Services)

New Delhi, the 30th July 2007

No. 14013/01/2007-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Abhijit Choudhury, a member of the Indian Administrative Service, borne on the State Cadre of West Bengal of 1994 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 27.04.2005.

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 2007

No. 39019/02/2007-Estt(B).—The President is pleased to appoint Dr. K. K. Paul, Commissioner of Police, Delhi as Member, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 26th July, 2007.

(Smt.) SATI MOHANDAS, Under Secy.

New Delhi, the 1st August 2007

No. A-60011/6/2005-Ad.I(G).—

In terms of Sections 5(2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and in supersession of all earlier Notifications and Amendments issued on the subject matter, the following officers of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions are hereby designated as Central Public Information Officers and their Appellate Authorities in respect of the specific subject matters mentioned against their names:—

Sl.No.	Name of the Central Public Information Officer	Designation	Tele.No.	Subject Matter	Name of Appellate Authority with Designation / Tele.No.
1.	Shri Ravindra Kumar	Under Secretary (SM-II)	23093913	All matters pertaining to the appointment to posts of the level of Joint Secretary and above in Statutory Commissions / Tribunals, Financial Institutions (excluding Banks and Insurance Companies), Autonomous Institutes under the control of Government of India.	Shri Alok Kumar Director (ACC) 23092272
2.	Shri S.K. Ahluwalia	Under Secretary (ACC)	23093063	All Board level appointments in PSUs, Railway/ Banks and Financial Institutions (Banks and Insurance Companies) under the control of Government of India; Appointment of Central Election Observers.	-do-
3.	Smt. Vimla Bakshi	Under Secretary (SM.III)	23094575	Empanelment of IAS / Indian Forest Service and Central Services for holding Joint Secretary / equivalent posts at the Center.	Mrs. Rachna Shah Director (SM) 23092187
4.	Smt. Aparna Sachin Sharma	Under Secretary (FA- UN)	23092797	Cases relating to IAS/ CSS/ IFS /IPS/ IA&AS and other Group 'A' Service Officers for taking up foreign assignment Training/consultancy assignments with various UN and other International Organisations; holding meetings of the Central Establishment Board; Parliamentary work on foreign assignment matters; filling up the post of Secretary General Colombo Plan and ARR, UNDP, New Delhi and other such posts; Grant of NOC to Secretary level officers who have applied against open advertisements.	Smt. Trishaljit Sethi. Director (MM) 23092842
5.	Shri Jai Prekash	Under Secretary (AIS) (Promotion -Desk)	23093683	Matters relating to promotion of State Civil Service/ Non-State Civil Service Officers to IAS; Administration of various Statutory Regulations etc.	Shri Ashwani Kumar Director (AIS) 23093064

2

6.	Shri Parma Nand	Under Secretary (AIS) (Seniority—Desk)	23093063	Matters relating to creation of new All India Service; Fixation of year of allotment of IAS officers promoted / appointed from State Civil Services/ non- State Civil Services and administration of Statutory Rules.	-do-
7.	Shri G.C. Pandey	Under Secretary (AIS-III)	23092285	All matters relating to IAS/IPS (Probationers) Rules; Regulations of various Rules of AIS; Printing/Publication of IAS Civil List / AIS Manual; IFS (Probation) Rules, Regulations of IPS (Uniform) Rules.	Shri Chaitanya Prasad Director (S) 23093591
8.	Shri Kabindra Joshi	Under Secretary (AVD-I)	23094224	All matters relating to disciplinary / complaint cases against IAS; Vigilance Clearance and Court cases relating to these subjects; complaints received from PMO/ Cabinet Secretariat; ADB project on Revision of Conduct Rules; Privilege Notice/ replies relating to IAS officers; CVC reference / reports and monitoring.	Smt. Manisha Saxena Deputy Secretary (V-II) 23094398
9.	Shri Vijay Kumar	Under Secretary (AVD-I)	23094799	All matters pertaining to the disciplinary cases of AIS officers and policy relating thereto; Proposals of CBI / State Govt. for prosecution of IAS officers under Prevention of Corruption Act; Processing of cases consequent upon conviction by the Court of Law etc; Examination / Processing of Appeals / Memorials of IAS officers against penalties.	-do-
10.	Shri Rajbir Singh	Section Officer (AVD-I)	23093028	All Vigilance/disciplinary matters pertaining to CBI	-do-
11.	Shri Chander Prakash	Under Secretary (AVD-II)	23092285	All administrative and financial matters relating to CBI.	-do-
12.	Shri Teja Singh	Under Secretary (AVD-III)	23093846	All administrative and financial matters relating to CVC; monitoring of Action Plan on Anti-Corruption measures policy; Complaint cases relating to Central /States/UT and PSUs employees; Appointment of CVOs in Ministries and PSUs below the rank of Joint Secretary.	Smt. Harjot Kaur Bambrah Director (V.III) 23094637
13.	Shri K.D. Sharma	Under Secretary (AVD-IV)	23092379	All matters relating to allegations/complaints/enquiries against Chief Ministers and Ministers of State Governments; Setting up of Commissions of Inquires relating to corruption charges; Sanction for prosecution of Chief Ministers and Ministers; Central Lokpal Legislation; Legislation relating to CVC	-do-
14.	Shri A. Balaram	Under Secretary (Estt. -A)	23093804	All matters relating to service conditions (except financial) of Central Services i.e. CCS(CCA) Rules and CCS (Conduct) Rules; Oath of Allegiance to the Constitution. Change of Name of Government Servants; Policy relating to issue of Gazette Notification; Classification of posts and grant of gazetted status; principles regarding sealed cover procedures; Efficiency Bar.	Shri C. A. Subramanian Director(E.II) 23092338

15.	Shri A.K. Chaturvedi	Under Secretary (Estt.-A)	23092313	All matters relating to Age of retirement; Voluntary/ premature retirement; provisions of the Liberalised Pension Rules; Medical Examination Rules, Alteration of Date of Birth of Government Servants, LTC, Transfer policy.	-do-
16.	Smt. Rajbala Singh	Under Secretary (Estt.-Allow)	23093846	Matters related to all kinds of leave except Casual Leave & Special Leave, Contract appointment, Service record & Service books; Facilities for Central Government employees posted in Kashmir valley; Matters related to appointment of consultants, Honorarium, Compulsory waiting, Overtime Allowance, Special Allowance to Parliament Assistants, Weightage Allowance.	Smt. Simmi R. Nakra Deputy Secretary (P&A) 23092483
17.	Shri S.K. Arora	Under Secretary (Estt.-B)(Desk-II)	23092313	All matters pertaining to verification of character and antecedents; Strike by the Government Servants; Subversive activities of Government Servants, Debar of candidates by UPSC/SSC; Minorities in Government Service; issue of certificate of eligibility for Union Service & posts to subject of Nepal, Tibet migrants from Pakistan etc; All policy matters relating to PESB and Right to Information Act, 2005.	Shri C. A. Subramanian Director(E.II) 23093180
18.	Shri A.K. Sharma	Under Secretary (Estt.-C)	23092313	All matters relating to domicile or residential qualifications for employment under Government, Probation of Government servants; CCS(T.S) Rules, 1965; forwarding of applications for higher posts; Technical Resignation; Confirmation/ Lien in civil posts; Regularization of service of casual workers; Status of women; Bond obligation; absorption cases.	-do-
19.	Shri A.K. Srivastava	Under Secretary (Estt.-D)	23093804	All cases pertaining to promotion & seniority of Central services except Railway and services under control of Department of Atomic Energy; Age relaxation; redeployment of retrenched temporary Government servants; Compassionate appointments; Appointment of meritorious sport persons; Ad-hoc appointment; ACP Scheme; Career Advancement Scheme.	Ms. Smita Kumar Director (E-I) 23092479
20.	Shri Ranbir Singh	Under Secretary (RR-II)	23094254	All matters relating to framing of Recruitment Rules/ Service Rules/ Service Cadres - Amendments / relaxation thereto; Flexible complimentary scheme for Scientists and Doctors except scales of pay fixation in respect of Ministries (A to K except Home & Health)	-do-
21.	Shri S. Jainendra Kumar	Under Secretary (RR)	23094254	All matters relating to framing of Recruitment Rules/ Service Rules/ Service Cadres - Amendments / relaxation thereto; Flexible complimentary scheme for Scientists and Doctors except scales of pay fixation in respect of Ministries (L to Z plus Home & Health)	-do-
22.	Shri Ratan Kumar Sharma	Section Officer (JCA)	23094678	Matters relating to Uniforms; Recognition of Associations/ Unions, JCM and National Council, working hours for the Central Government Offices; Holidays for Central Government employees.	Shri Mahendra Kumar Director (JCA) 23092589

23.	Shri A.K. Paney	Under Secretary (AT)	23094142	All administrative and financial matters relating to Central Administrative Tribunal.	Smt. Manju Pandey Director (AT) 23094906
24.	Shri A.K. Casyap	Under Secretary (Res)	23092110	All matters relating to Reservation policy for SCs /STs/ OBCs/ Ex-servicemen/ Women.	Shri K. G. Verma Director (Res.) 23092797
25.	Shri Nirmal Kumar	Section Officer (Estt. Res.)	23093307	All matters relating to Reservation for persons with disabilities.	-do-
26.	Shri B.K. Chugh	Deputy Secretary (Wel)	24624204	All policy matters related to welfare activities for Central Government employees; administrative & financial matters relating to Grih Kalyan Kendra and Kendriya Bhandar.	Shri R.P. Nath Director & CWO 24625562
27.	Shri V.K. Velukutty	Under Secretary (Admn)	23092982	All personnel and Estt. matters related to Gazetted employees of DOPT; Cash/ Budget/ Delhi Official Directory, Public grievances, Union War Book, Induction Material; Channel of Submission.	Shri Suresh Pal Director(Admn.) 22094319
28.	Shri Sagar Mehra	Under Secretary (Coord.)	23094579	All matters relating to house keeping, supply of machinery & equipments, liveries used in DOPT. Estt matters of Group 'C' (Technical) and Group 'D' employees/canteen employees/medical reimbursement/allotment of accommodation for employees of DOPT.	-do-
29.	Shri P.K. Misra	Under Secretary (Cadre)	23093064	All personnel and Estt. matters related to non-gazetted employees of DOPT; Cadre Management of CSS personnel posted under DOPT Cadre.	-do-
30.	Shri J.S. Dalia	Under Secretary (Parl.)	23092240	All parliamentary matters; personnel matters of Staff Car Drivers & Despatch Riders; Annual Report.	-do-
31.	Shri Harish Chander	Under Secretary (Vig.)	23092298	All matters relating to Disciplinary Action of all officials working in DOPT/Audit Paras/Work relating to Parliamentary Standing Committee.	-do-
32.	Shri V.A. Pillai	Under Secretary (PESB)	24361632	All matters pertaining to the functioning of the office of PESB.	Shri Rajeshwar Dayal Deputy Secretary (PESB) 24362936
33.	Shri Jerome Minz	Under Secretary (Trg.)	26107957 26109049	All matters relating to Training projects Funded by DFIDUNDP and special centralized training programme/ related projects, EROPA and Budget of Training Division.	Shri K.S. Saha Director(Trg.) 26107956
34.	Shri P.P. Kalra	Under Secretary (Trg.)	26161871	All domestic funded foreign training programmes	Shri B. Srinivas, Director (Trg.) 26168197
35.	Shri Chanan Ram	Under Secretary (Academy)	26109049	All administrative matters pertaining to LBSNNA, development of DM's portal and support to State Training Activities.	Shri K.M. Brahme DS(Academy) 26107966

10-1929/07

5

36.	Shri D.K.D. Rao	Under Secretary (Trg.)	26109040	All matters relating to Long Term Domestic Training Programme conducted at IIM, Bangalore, IIM Ahmedabad, TERI School of Advance Studies, New Delhi and Management Development Institute, Gurgaon/IAS Induction Training/ Syllabus Review Committee/ MOUs/ Multilateral/Bilateral Agreements.	Shri B. Srinivas, Director (Trg.) 26168197
37.	Shri A.B. Maindoliya	Joint Director (Trg.)	26107957 26109049	All matters relating to Training Projects Funded by UNDP/ APPPA programme and long-terms domestic training programme on Public Policy.	Shri Vineet Pandey Director, 26107960
38.	Sh. Arvind Pokhriyal	Section Officer (Trg.)	26107957	Matters relating to Trainer Development Programme	-do-
39.	Shri P.K. Sabnani	Sr. Research Officer (CR)	24622461	Matters relating to gradewise cadre strength of Group 'A' CCS; follow up action on stagnation with the concerned cadre /services.	Deputy Secretary (CR) 24624235
40.	Shri B.S. Chauhan	Deputy Director (OL)	23093022	All Matters pertaining to promotion of Official Language in DOPT.	Shri Suresh Pal Director (Admn.) 23092338
41.	Smt. Manisha Bhatnagar	Under Secretary (Trg.)	26107957	All matters relating to IIPA/ISTM and Trainers Development Programme.	Shri Vineet Pandey Director (26107960)
42.	Shri Ziley Singh Vical	Desk Officer (AIS-I)	20393683	Matters relating to Civil Service Examination Rules; allocation of successful candidates of Civil Examination; maintenance of Dossiers of IAS/IPS officers; IAS/IPS/IFS (Recruitment Rules) 1954 and appointment by Competitive Examination, Rules, 1955; Policy regarding inter-cadre deputation/ inter-cadre transfer & IAS officer. Policy regarding medical examination.	Shri Ashwani Kumar Director (AIS) 23093064
43.	Shri K.K. Sharma	Desk officer (AVD-I)	23094799	All matters pertaining to the disciplinary cases against CSS /CSSS officers and policy relating thereto; Vigilance clearance of CSS officers; proposals for sanction for prosecution of CSS officers; U.N. Convention against corruption; Anti-corruption initiative of ADB/OECD; Privilege Notices /replies regarding CSS officers.	Smt. Harjot Kaur Bahlraha Director (V-III) 23094637
44.	Shri Punchinkhup Guite	Desk Officer (PIC)	23093028	Policy relating to optimization of direct recruitment to civilian posts; Datas collection from various Ministries/ Departments of Screening Committee meetings.	Shri Mahendra Kumar Director (ICA) 23092589
45.	Shri R.K. Gupta	Desk Officer (Pay Desk)	23094824	All matters relating to Pay Rules of IAS, IPS & IFS officers; AIS (LTC) Rules; Indian Police Service (Special Allowance) Rules, 1997; Pay Fixation of AIS officer; Standard terms of deputation for AIS officers for deputation to PSUs / on Foreign Service etc.	Shri Chaitanya Prasad, Director (S) 23093591

46.	Miss Banarjee	Bandana	Desk Officer (Estt. -D)	23094575	All matters relating to (i) Policy guidelines on seniority applicable to persons appointed to Central Civil Services and Civil Posts except such services and posts for which separate rules/guidelines have been issued by the concerned Cadre Controlling Authority, (ii) Policy on compassionate appointment, (iii) Policy on relaxation of upper age-limit for direct recruitment for certain categories of candidates such as departmental candidates, physically handicapped persons, Residents of the State of Jammu & Kashmir etc., (iv) Appointment of meritorious sports persons to Group 'C' and 'D' posts in relaxation of the procedure and (v) Exemption from passing the typing test in respect of LDCs who do not belong to Central Secretariat Services.	Shri C.A. Subramanian Director(E-II) 23092338
47.	Shri S.K. Mohanty		Section Officer (SM-I)	23093376	Appointments to the posts of Joints Secretary level made through the Central Staffing Scheme; Regularization of overstay/Extension/premature reversion of officers from inter-cadre deputation; Holding of Civil Services Board's Meetings and preparation of agenda thereof.	Shri Rachna Shah Director (SM) 23092187
48.	Shri Harish Chander Rai		Section Officer (AIS-Cadre Desk)	23094824	All matters relating to IAS /IPS/IFS (Cadre) Rules; (Fixation of Cadre Strength) Regulation; Joint Cadre Rules.	Shri Chaitanya Prasad, Director (S) 23093591
49.	Shri Rama Kant Singh		Section Officer (AIS- Pension Desk)	23094824	Payment of Saving /Insurance amount to IAS (Group Insurance) Rules, 1981; matters under AIS (DCRB) Rules; AIS (Commutation of Pension) Regulation and other rules; amendments to the said rules.	-do-
50.	Smt. Shanti Puri		Section Officer (PR)	23092697	All matters relating to maintenance and custody of ACRs of IAS/CSS officers of Joint Secretary Grade and processing of representations/memorials of these officers against adverse remarks.	Shri Bharat Prasad Director (PR) 23093298
51.	Shri Syed Imran Ahmed		Section Officer (MM-I)	23093376	All matters pertaining to the appointments/postings/deputation of officers belonging to IAS/Central Group 'A' Services at the level of Under Secretary/Deputy Secretary/Director under Central Staffing Scheme.	Smt. Trishaljit Sethi, Director (MM) 23092842
52.	Shri R.K. Kharb		Section officer (MM-II)	23092379	Appointment of officers against non- Secretariat posts below the level of Joint Secretary, appointment of officers of organized Services against the posts located in India Missions abroad; appointment of Chief Security Officers in PSUs upto the level of DIG.	-do-

53.	Smt. Urmila Rawat	Section Officer (Pay-I)	23092030	All matters related to fixation of pay/ Stepping up of pay/ Stagnation Increments/ Increments/ FRs on pay matters.	Smt. Rita Mathur Director (Pay) 23093846
54.	Shri J. C. Bhatt	Section Officer (Pay-II)	23092030	Deputation/ Pay fixation on re-employment after retirement/superannuation combination of appointments/ Pay revision on the basis of recommendation of pay commissions/Proforma Promotion under NBR.	-do-
55.	Shri G. Mukhopadhyaya	Section Officer (Canteen)	24694349	All policy matters relating to setting up of Departmental Canteens in Ministries/ Departments; framing of guidelines; service matters relating to the employees of Canteens.	Shri R.P. Nath Dir. & CWO 24625562
56.	Shri Sanjay Kumar	Section Officer (Estt. -B) (Desk -I)	23092797	All matters relating to Union Public Service Commission and Staff Selection Commission.	Shri C.A.Subramanian, Director (E-II) 23093180
57.	Shri Ghan Sham Singh	Asstt. Secretary (CCSCSB)	24624204	Matters relating to All India Civil Services Tournaments; Financial assistance to State Govts/Us; Inter-Ministry Tournaments in Delhi; Procurement of sports equipments and prizes.	Shri R.P. Nath Dir. & CWO 24625562
58.	Shri K. Suresh Kumar	Under Secretary (CS-I)	24629412	All matters relating to Assistant Grade/SO Grade of CSS Rotational transfers of Under Secretaries and all other Misc. matters/policy/training matters relating to CSS.	Shri R.K. Ojha Deputy Secretary(CS-I) 24629411
59.	Shri Deepak Israni	Under Secretary (CS-I)	24629413	All matters relating to Deputy Secretaries/Directors of CSS and also repository of ACRs of CSS Officers of US & above.	-do-
60.	Shri Shaikat Ali	Desk Officer (CS-I)	24629414	All matters relating to US Grade of CSS.	-do-
61.	Smt. Bimla Chadha	Section Officer (CS-IV)	24622706	All matters relating to Recognition of Union/Associations of CSS/CSSS/CSCS.	Mrs. Indira Murthy, Deputy Secretary(CS-IV) 25624722

62.	Smt. Savita Pandhi,	Section Officer (CS-III)	24626024	Matters relating to Redeployment of Surplus Group 'A', 'B', 'C' and 'D' staff; maintenance of record in respect of special VRS Optees /retirees.	Shri Raj Kishore Deputy Secretary (RR) 24624821
63.	Shri G.S. Pundir	Under Secretary(CS-II)	24623107	All matters pertaining to CSSS/UDC/Clerical grade/Personal Staff of Ministers.	Sh. M.C. Luther, Deputy Secretary(CS-II) 24622365
64.	Smt. Veena Khosla	Section Officer (CRD)	24622461	Matters related to cadre Review of CCS/ Cadres; Periodical review of regularly constituted Group 'A' CCS; Policy and general orders regarding, non-functional selection grade.	Deputy Secretary(CR)
65.	Shri V.K. Tirkey	Section Officer (SRS)	24626024	All matters relating to allocation of Service personnel (other than those in All India Service) of the Bihar states affected by States Reorganisation to the successor States of Jharkhand and other issues connected therewith and Bihar State Advisory Committees.	Shri V. Peddanna Deputy Secretary(SR) 24623711
66.	Smt. Anjali Anand	Section Officer (SR)	24626024	All matters relating to allocation of Service personnel (other than those belonging to the All India Service) of the Uttar Pradesh affected by States Reorganisation to the successor States of Uttarakhand and other issues connected therewith and Uttar Pradesh State Advisory Committees.	-do-
67.	Shri M.S. Sharma	Under Secretary(SR)	24698708	All matters relating to allocation of service personnel (other than those belonging to the All India Service) of the Madhya Pradesh affected by States Reorganisation to the successor States of Chhattisgarh and other issues connected therewith and Madhya Pradesh State Advisory Committees.	-do-
68.	Shri Dinesh Chandra Sharma	Section Officer(RTI Cell)	23093022	All policy matters relating to RTI Act/amendment, framing of rules under RTI Act, and matters relating to CIC.	Ms. Anuradha S. Chagti, OSD(RTI) and in her absence Shri K.G. Verma, Director (RTI)

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

11-19291/27

New Delhi-110067, the 3rd August 2007

### CORRIGENDUM

No. 13016/02/2006-Trg.—In this Department Notification of even no. dated 16.07.2007 the words "for a period of 5 years" may be deleted and the date '25.06.2007' may be read as '25.06.2007'.

MANISH BHATNAGAR, Under Secy. (Trg.)

No. 13016/06/2006-Trg.I.—The Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training is pleased to appoint Shri Ved Prakash Sharma, Senior Accountant, Pay and Accounts Office (North Zone), Ministry of Urban Development, New Delhi as Assistant Director (Accounts) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on ad hoc basis, for a period of one (1) year with effect from 06.07.2007 (forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

MANISH BHATNAGAR, Under Secy. (Trg.)

### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 25th May 2007

### INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 22 of 2007 (F. No. A-38012/09/2007-Ad.II).—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri B. S. Ganu, Chief Commissioner of Customs & Central Excise, Nagpur, from the Government Service with effect from 27.06.2007 (F.N.), under Rule 48 of CSS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 18th June 2007

### CORRIGENDUM

No. 34/2007 (F. No. A-22011/01/2007-Ad.II).—In partial modification of Notification No. 34 of 2007 dated 11th June, 2007, the additional charge of the post of Director General, Export Promotion, New Delhi is assigned to Shri J. K. Batra, Director General (Safeguard & Trade Facilitation), New Delhi w.e.f. 04.06.2007 (A.N.) till further orders.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 29th June 2007

### CORRIGENDUM

No. 23/2007 (F. No. A-22011/14/2007-Ad.II).—In partial modification of Notification No. 23 of 2007 dated 25th May, 2007, Central Excise, Kolkata-III (Appeals) may be read as Central Excise Kolkata-II (Appeals).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 11th July 2007

No. 44/2007 (F. No. C-50/74/2006-Ad.II).—In exercise of the powers conferred in terms of GOI decision No. (2) under Rule 12 of CSS (CCA) Rules, 1965, Shri Hari Om Tiwari, Director General, Service Tax, Mumbai is hereby assigned the additional charge of Chief Commissioner, Customs, Mumbai-I for review work only.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

New Delhi, the 25th May 2007

No. 23/2007 (F. No. A-22011/14/2007-Ad.II).—In exercise of the powers conferred in terms of GOI decision No. (2) under Rule 12 of CSS (CCA) Rules, 1965, the following additional charge in the grade of Commissioner of Customs & Central Excise/(Appeals) are hereby ordered with effect from 25.05.2007 until further orders :—

Sl No.	Vacant post(s)	Additional charge assigned to the officer posted as
1.	Central Excise, Kolkata-III (Appeals)	Central Excise, Bhubaneswar (Appeals)
2.	Central Excise, Kolkata-IV (Appeals)	Central Excise, Ranchi (Appeals)
3.	Central Excise, Mangalore (Appeals)	Central Excise, Bangalore-III (Appeals)
4.	Customs, Jamnagar (Appeals)	Customs, Mumbai-II (Appeals)
5.	Customs, Ahmedabad (Appeals)	Customs, Mumbai (Appeals) (Airport)
6.	Customs, Chennai (Airport & ACC) (Appeals)	Customs, Bangalore (Appeals)
7.	Central Excise, Calicut	Central Excise, Cochin

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

The 13th July 2007

No. 45/2007 (F. No. A-22011/02/2007-Ad.II).—In exercise of the powers conferred in terms of GOI decision No. (2) under Rule 12 of CSS (CCA) Rules, 1965, Shri Indrajit Dasgupta, Commissioner (Adj.), Bangalore-II is assigned the additional charge of the post of Commissioner of Central Excise (Appeals), Daman w.e.f. 13.07.2007 till a regular incumbent joins the post.

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

New Delhi, the 19th July 2007

No. of 2007 (F. No. A-32014/2/2002-Ad.IA).—In pursuance of the Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O.Ms. No. A-32014/3/2007-CAS dated 12.07.2007 and dated 16.07.2007, the President is pleased to continue the appointments of the following officers

as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) on ad hoc basis for a further period of six months upto 31.12.2007 or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier :—

S. No. Name

- S/Shri/Ms.
1. N. S. Sharma
  2. Tarun Kumar
  3. Praveen Singh
  4. R. Srikant
  5. M. S. Narayan Murthy
  6. Shyam Sunder Bhatia
  7. Kamlesh Luthra
  8. Balvinder Singh
  9. Mangat Ram
  10. Vandana Singh
  11. N. Alarmel Mangai
  12. K. Kumar
  13. Bhagat Singh
  14. Sansar Chand Birdi

All the other terms and conditions already in force will remain unchanged.

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 1st August 2007

No. A-19012/20/2007-Admn.IA.—The President is pleased to appoint Ms. Renuka Mishra (IES), a Junior Time Scale Officer of IES, as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 9th July, 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 27th July 2007

No. A-19011/269/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Sukriti Likhi, IAS (HY : 93) as Director in the Ministry of Finance, Department of Financial Services in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- by re-designating the post of Deputy Secretary presently held by her to that of Director as a measure personal to her with effect from the forenoon of 24th July, 2007 for the balance period of her

tenure which would now be up to 19.04.2012 or until further orders, whichever event occurs earlier. Smt. Sukriti Likhi, Director counts her tenure at Centre w.e.f. 20.04.2007.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

No. A-19011/233/2003-Estt.—The President is pleased to relieve Shri G. C. Chaturvedi, IAS (UP : 77), Joint Secretary from the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 31st July, 2007 consequent upon his appointment as Mission Director, National Rural Health Mission and Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare) vide DoPT's communication No. 4/10/2007-EO(SM-1) dated 19.07.2007.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 25th July 2007

No. PFCA (341)/Ad.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Shri Jagdish Govind Nagwekar, from the post of Deputy Director (Cost), in Indian Cost Accounts Service with effect from 23rd July, 2007.

M. K. SAHOO, Dy. Dir. (Cost)

New Delhi, the 3rd August 2007

No. A-11019/2/2007-EG.—The President is pleased to appoint Shri Asim Kumar Bhattacharya of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the Office of the Accountant General (A&E), West Bengal, Kolkata in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 03.04.2007 (F.N.) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

(DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110003, the 31st July 2007

No. 9/7/2006-Admn.—In continuation of this Department's Notification No. 9/7/2006-Admn. dated 8th March, 2007, the President is pleased to continue the appointment of Shri Ram Charan, Steno Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers Service to the post of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSS (designated as Private Secretary) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for a further period of six months with effect from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier, in terms of O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 29.06.2007 of the Department of Personnel and Training and in pursuance of Department of Expenditure (Cadre Administration Section) O.M. No. A-32014/3/2007-CAS dated 12.07.2007.

2. The other terms and conditions of ad hoc appointment as mentioned in Notification of even number dated 28.08.2006 will remain unchanged.

S. K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 4th July 2007

No. PFG(840)/02-Ad.I.—In continuation to this Ministry's Notification No. A-12023/1/2002-Ad.I dated 19.07.2002 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M.No. 14/1/2002-EO (MM-I) dated 22nd June, 2007, the tenure of Shri Pawan K. Kumar, IRS (IT : 90), presently working as Director in the Ministry of Corporate Affairs is extended for a period of three months beyond 17.07.2007 i.e. upto 17.10.2007.

2. He will not be entitled to any central deputation allowance during this extended period as per the DOPT O.M. No. 2/8/97-Estt. (Pay-II) dated 11.03.1998.

R. C. TULLY, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE) (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 31st July 2007

No. A-42014/2/2007-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri B. C. Pant, a regular Grade-I Officer (Date of Birth : 01.01.1948, CSL No. 3152), presently Deputy Secretary on ad hoc basis of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS Cadre of Department of Commerce (Supply Division) against the Select List for the year 1999.

V. K. SHARMA, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 31st July 2007

No. 14/2007 (F. No. 6/1185/77/HRD-I/3628).—On attaining the age of superannuation Shri Surat Singh, Additional DGFT, borne on the strength of this Office has retired from Government service with effect from 31.07.2007 (AN).

MUKESH BHATNAGAR, Jt. Dir. Genl. of  
Foreign Trade

No. 15/2007 (F. No. 6/2021/93/HRD-I/3624).—On attaining the age of superannuation Shri Mahinder Pal, FTDO, borne on the strength of this Office has retired from Government service with effect from 31.07.2007 (AN).

MUKESH BHATNAGAR, Jt. Dir. Genl. of  
Foreign Trade

No. 16/2007 (F. No. 6/2055/94/HRD-I/3632).—On attaining the age of superannuation Shri Gurmukh Singh, PS, borne on the strength of this Office has retired from Government service with effect from 31.07.2007 (AN).

MUKESH BHATNAGAR, Jt. Dir. Genl. of  
Foreign Trade

No. 17/2007 (F. No. A-12023/1/2006-HRD-I/3636).—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee held on 08.08.2006 and with the approval of the Competent Authority, the following eight officers holding the post of Section Head in the pay scale of Rs. 5,500-175-9,000/- in Directorate General of Foreign Trade are promoted to the post of Foreign Trade Development Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 :—

1. Smt. Margaret Jos
2. Shri Avil D. Mello
3. Shri P. K. Bhowmik
4. Shri Haroon Bilal
5. Smt. B. Vijayalakshmi
6. Smt. L. Sreelakshmi
7. Shri S. Sunderaraman

2. The Competent Authority has also approved the promotion of Smt. K. Lalitha SH, to the post of Foreign Trade Development Officer, on ad hoc basis, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-. The ad hoc promotion shall not bestow on the officer concerned any claim for regular appointment and the ad hoc service rendered shall not count for the purpose of seniority in the grade or towards eligibility for promotion etc. or any other similar benefit whatsoever.

3. The above promotions shall take effect from the date of their assumption of charge of the said post in the place of posting indicated in the Office Order No. PT-12/2007 dated 31.07.2007.

MUKESH BHATNAGAR, Jt. Dir. Genl. of  
Foreign Trade

#### MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 31st July 2007

No. P-23011/1/2006-Mkt.—In terms of sub-section (1) of Section 4 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby appoints Dr. Y. P. C. Dangay, as Member (Legal) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) for a period of five years with effect from the afternoon of 31st July, 2007 or till the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

PREM KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110011, the 9th July 2007

No. 5(6)/2006-Estt.—The Competent Authority has approved the proposal for premature repatriation of Shri Anil Sant, IAS (UP : 88), presently working as Director, Ministry of Steel, to his parent cadre on account of his appointment as Secretary to the Chief Minister of Uttar Pradesh, without attracting the provisions of extended "Cooling Off".

Accordingly, Shri Sant is hereby relieved of his duties with effect from the afternoon of 9th July, 2007.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC  
ENTERPRISES  
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 31st July 2007

No. A-32013/1/2005-Admn.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri R. L. Meena as Joint Adviser in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for a further period of six months w.e.f. 18.07.2007 or till the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

D. DWARKANATH, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM  
ENTERPRISES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(MSME)

New Delhi, the 31st July 2007

No. A-19018/437/79-Admn.(G).—On attaining the age of superannuation, Shri John Mathai, Deputy Director (Food), MSME Development Institute, Thrissur under this Organization retired from Government Service on the afternoon of 30.06.2007.

MAHINDER SINGH, Dy. Dir. (Admn.)

New Delhi, the 1st August 2007

No. A-32016/16/2004-A(NG).—The Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) is pleased to place the following Small Industry Promotion Officers of 13 Technical Trades of Small Industries Development Organisation in the upgraded, merged and re-designated post of Assistant Director Gr. II (13 Technical Trades) (Group 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 17.07.2004 i.e. the date on which upgraded scale of pay have become effective or the date(s) indicated against each as per RRs, as per details given below :—

Sl. No.	Name of Officer(s)	Date of placement
1	2	3
	S/Shri	
I.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (MECHANICAL)	
1.	S. Narasimha Murthy	17.07.2004
2.	K. P. Verma	17.07.2004
3.	K. K. Funda	17.07.2004
4.	B. N. Kapoor	17.07.2004
5.	Baru Ram	17.07.2004
6.	Devendra Kumar Dixit	17.07.2004
7.	Satya Prakash	17.07.2004
8.	Rakesh Kumar Bhargava	17.07.2004
9.	R. P. Choudhary	17.07.2004
10.	Manjit Singh	17.07.2004
11.	Vijay Garge	17.07.2004
12.	Raj Kumar	17.07.2004
13.	K. N. Dwivedi	17.07.2004
14.	Bhim Rao Chandokar	17.07.2004
15.	V. M. Mohanan Nambissan	17.07.2004
16.	Udai Kumar Anant Bhat	17.07.2004
17.	Stany Richard Crasta	17.07.2004
18.	Chandra Mal	17.07.2004
19.	A. Elangovan	17.07.2004
20.	Ngangom Manirotan Singh	17.07.2004
21.	Ashok Kumar Malhotra	17.07.2004
22.	N. C. Maurya	17.07.2004
23.	Keshri Prasad	17.07.2004
24.	M. Govind Raj	17.07.2004
25.	Aluri Suresh	17.07.2004
26.	Ashok Kumar Mukherjee	17.07.2004
27.	Ravi Shankar Mishra	17.07.2004
28.	Dinesh Kumar Aggarwal	17.07.2004
29.	Bhawani Prasad Behera	17.07.2004
30.	Ignatius Tirkey	17.07.2004
31.	Kishore B. Irpate	17.07.2004
32.	Jagdish Prasad Mittal	17.07.2004
33.	Najmi Ahmed Raza	17.07.2004

1	2	3
	S/Shri	
34.	Dhananjay R. Johari	17.07.2004
35.	Phool Singh	17.07.2004
36.	Hare Krishna Choudhury	17.07.2004
37.	Sat Pal	17.07.2004
38.	Ramakrishna V.	17.07.2004
39.	Binoy Bhushan Sahay	17.07.2004
40.	B. S. Hosamani	17.07.2004
41.	Soma Mundu	17.07.2004
42.	Wazir Singh	17.07.2004
43.	Rajender Singh Dahiya	17.07.2004
44.	Jitender Kumar Sinha	17.07.2004
45.	L. Kundan	17.07.2004
46.	Done Kiran Kumar	17.07.2004
47.	Kishore Chand Bakshi	17.07.2004
48.	Vadkkath Parameswaran	17.07.2004
49.	Suresh Babu P. V.	17.07.2004
50.	Om Prakash Chakole	17.07.2004
51.	Bijender Kumar	17.07.2004
52.	Mangli Prasad	17.07.2004
53.	Daya Ram	17.07.2004
54.	S. Steenivasa	17.07.2004
55.	Onkar Saran Sinha	17.07.2004
56.	Tapan Kumar Banerjee	17.07.2004
57.	V. Uvaraj	17.07.2004
58.	Gyan Singh	08.04.2005
59.	K. Shivappa	03.12.2005
60.	K. Appalaraju	10.10.2005
61.	M. Baskar	18.08.2006
62.	A. P. Daptardar	06.10.2006
63.	Girish Kumar	06.08.2006
II.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (ELECTRICAL)	
64.	J. Thomas	17.07.2004
65.	Joseph Kunju K.	17.07.2004
66.	Mohd. Umar Farooq	17.07.2004

1	2	3
	S/Shri	
67.	Satinder Singh	17.07.2004
68.	Dipak Kumar Rabha	17.07.2004
69.	M. Shantaram	17.07.2004
70.	Brahm Prakash	17.07.2004
71.	Brij Pal Singh	17.07.2004
72.	Naveen Kumar	17.07.2004
73.	Ashok Kumar Janardhan	17.07.2004
74.	Ram Ji Misra	17.07.2004
75.	G. Venkatrao Naidu	17.07.2004
76.	Khunekar M. Govind Rao	17.07.2004
77.	Brijesh Mohan Saxena	17.07.2004
78.	Ram Pal Singh	17.07.2004
79.	Siddarth Sankar Barua	17.07.2004
80.	Anil Kumar Singh	17.07.2004
81.	Mewa Lal	17.07.2004
82.	Praful Umare	17.07.2004
83.	D. A. Potdukhe	25.07.2004
III.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (ELECTRONICS)	
84.	Rakesh Kumar	17.07.2004
85.	Y. Raveendran	17.07.2004
86.	P. K. Das	07.03.2005
IV.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (METALLURGY)	
87.	T. P. Vijay Kumar	17.07.2004
88.	R. V. Rajagopal	17.07.2004
89.	Sunil Kumar	17.07.2004
90.	V. Rangarao Goberu	17.07.2004
91.	Ajay Sharma	17.07.2004
92.	Prabhakar Prasad	17.07.2004
93.	Sunil Ramdas Khujnare	17.07.2004
94.	Anil G. Rao Telang	17.07.2004
95.	Subhash Ingewar	17.07.2004
96.	Y. B. Baghel	17.07.2004
97.	R. Vijay Kumar	17.07.2004
98.	Jandhalya Nagesh	17.07.2004

1	2	3	1	2	3
	S/Shri			S/Shri	
99.	Dhanraj N. Gosavi	17.07.2004	127.	Manoj Kumar	17.07.2004
100.	Vidyadhar Vijay Khare	17.07.2004	128.	Sunil Kumar Agnihotri	17.07.2004
101.	Ms. Maitreyee Talapatra	17.07.2004	129.	Tushar Kanti Chakraborty	17.07.2004
102.	Naresh H. Manwatkar	17.07.2004	130.	Mahesh Kumar Sharma	17.07.2004
103.	Manoj Narayan Girame	17.07.2004	131.	Darshan Singh Kandari	17.07.2004
104.	N. M. Karuparthi	17.07.2004	132.	Dr. Amit Chandra Pant	17.07.2004
105.	Ramesh Purimetla	17.07.2004	133.	Rajesh Kumar	17.07.2004
106.	Kameshwar Yadav	17.07.2004	134.	Subas Kumar Sahu	17.07.2004
107.	Vinay Kumar	17.07.2004	135.	Kuppusamy Pandian	17.07.2004
V.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (HOSIERY)		136.	Sunil Kumar	17.07.2004
108.	S. K. Bhatnagar	17.07.2004	137.	Dr. Ajay Kumar Mishra	17.07.2004
109.	Barinder Singh	17.07.2004	138.	Sundeep Kumar Aggarwal	17.07.2004
110.	Kuldip Singh	17.07.2004	139.	Hirdayesh Kumar Sharma	17.07.2004
111.	V. A. Anjanee Kumar	01.12.2005	140.	Rajat Kumar Pyne	17.07.2004
VI.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (CANE MAKING)		141.	Om Pal Singh	17.07.2004
112.	Bishu Pada Das Gupta	17.07.2004	IX.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (METAL FINISHING)	
VII.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (TAILORING)		142.	Shahood Alam	17.07.2004
113.	Gordan Dass	17.07.2004	143.	Naipal Singh	17.07.2004
VIII.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (CHEMICAL)		144.	Subhash Chand	17.07.2004
114.	Amrish Kumar Jain	17.07.2004	X.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (GLASS & CERAMICS)	
115.	Dr. Jai Prakash Pathak	17.07.2004	145.	Alla Koti Reddy	17.07.2004
116.	P. C. Haldhar	17.07.2004	146.	Shashi Bhushan Singh	17.07.2004
117.	Jagdish Narain Mishra	17.07.2004	147.	Veguru Sridhar Reddy	17.07.2004
118.	S. C. Sharma	17.07.2004	148.	N. Srinivasulu	17.07.2004
119.	Shivraj Singh Gangwar	17.07.2004	149.	Rishi Pal Singh	17.07.2004
120.	Shamal Kumar Bhakta	17.07.2004	150.	K. Kandasamy	17.07.2004
121.	Labanya Kumar Lakhar	17.07.2004	151.	P. B. Parmar	17.07.2004
122.	Utpal Roy Choudhury	17.07.2004	152.	Joydev Paul	17.07.2004
123.	Gouri Shankar Khandelwal	17.07.2004	153.	H. Baldev Singh	17.07.2004
124.	Alak Kumar Mitra	17.07.2004	154.	Dheer Singh	17.07.2004
125.	T. R. Satyakeerthy	17.07.2004	155.	K. Venkata Rao	17.07.2004
126.	Chanduri S. Sudhakar	17.07.2004	156.	Kundan Lal	17.07.2004
			157.	J. P. Rajendran	17.07.2004
			158.	Balbheem Jawalgi	17.07.2004

1	2	3
	S/Shri	
159.	Sitanath Mukhopadhyay	17.07.2004
160.	S. L. Narasimha Kumar	17.07.2004
161.	Devendra Singh Tomar	17.07.2004
162.	N. Shivlingam	17.07.2004
163.	Sukanta Kumar Mandal	17.07.2004
164.	A. Poornanadha Prabhu	17.07.2004
165.	Rajesh Bhattacharya	17.07.2004
166.	Mahesh Chand	17.07.2004
167.	Sundara Sherigara M.	17.07.2004
168.	Vijay Singh	28.01.2005
XI.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (LEATHER & FOOTWEAR)	
169.	Ashok S. Tryambake	17.07.2004
170.	T. Gurusamy	17.07.2004
171.	Bipin Chandra Singh Bist	17.07.2004
172.	S. R. Chandra Sekaran	17.07.2004
173.	Pradeep Kumar Sharma	17.07.2004
174.	Debashish Ghosh	17.07.2004
175.	Jagminder Singh	17.07.2004
176.	Santosh Das	17.07.2004
177.	P. K. Singhal	17.07.2004
178.	Sudip Kumar Sen	17.07.2004
179.	Rakesh Chandra	17.07.2004
180.	Kali Charan Bhukesh	17.07.2004
181.	Rajiv Kumar	17.07.2004
182.	Mohinder Kumar	17.07.2004
183.	Daljit Singh	17.07.2004
184.	G. P. Aggarwal	17.07.2004
185.	Kishore Tatyia Kalkar	17.07.2004
186.	Shakil Ahmed	17.07.2004
187.	Sanatan Sahoo	17.07.2004
XII.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (IMT)	
188.	Aloke Kumar Kaviraj	17.07.2004
189.	K. G. Srinath	17.07.2004
190.	Tirlok Gupta	17.07.2004

1	2	3
	S/Shri	
191.	Ishwar Singh Ahlawat	17.07.2004
192.	Rajshekhar Awasthi	17.07.2004
193.	Harpal Singh	17.07.2004
194.	Sudhir Gautam	17.07.2004
195.	Subra Kumar Das	17.07.2004
196.	Kiran Kumar Goyal	17.07.2004
197.	Saroj Kumar Rath	17.07.2004
198.	Mahavir Singh Teotia	17.07.2004
199.	Karun Kumar	17.07.2004
200.	Durga Charan Mishra	17.07.2004
201.	Doifode P. Tulshiram	17.07.2004
202.	Biswa Bihari Sahoo	17.07.2004
203.	Pradip Kumar Mishra	17.07.2004
204.	P. K. Sarkar	17.07.2004
205.	R. S. Verma	17.07.2004
206.	P. Venkatachalam	17.07.2004
207.	Mrs. R. Sakthi Rani	17.07.2004
208.	Goutam Podder	17.07.2004
209.	Manabendra Dutta	17.07.2004
210.	Yogendra Pandey	17.07.2004
211.	H. S. Laitonjam	17.07.2004
212.	K. Macharaja	17.07.2004
213.	Dileep Sandhu Kandhare	17.07.2004
214.	Kailash Chand Meena	17.07.2004
215.	Raghu Ram Gavara	17.07.2004
216.	K. V. Ravi Kumar	17.07.2004
217.	Mukesh Chandra Mathur	13.06.2005
218.	Rakesh Kumar Choudhary	13.06.2005
219.	Prasad Prahlad Kulkarni	25.07.2004
220.	M. V. Sudhir Kumar	17.07.2006
XIII.	ASSISTANT DIRECTOR GR. II (FOOD)	
221.	Arvind Kumar Ojha	17.07.2004
222.	Sunil Kumar Pandey	17.07.2004
223.	Martin P. Chacko	17.07.2004
224.	Sanjay Nigam	17.07.2004

## MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 31st July 2007

No. A-19011/08/1974-CMT.—The President is pleased to permit Shri R. K. Bansal, Joint Director (F&VP), Ministry of Food Processing Industries to retire from government service with effect from the afternoon of 31.07.2007 on his attaining the age of superannuation.

S. K. MOHANTY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 31st July 2007

No. A-19015/03/03-Admn.I(A).—The President is pleased to retire Smt. Rukmani Srinivasan, Private Secretary from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31st July, 2007 (AN).

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 20th July 2007

No. A-12011/01/2006-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2000 for appointment to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service, the President is pleased to appoint Shri Virendra Kapoor, to the post of Deputy Secretary (CCS) on regular basis with effect from 1st July, 2000 and until further orders.

S. C. AGRAWAL, Under Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT &amp; FORESTS

New Delhi-110003, the 13th July 2007

No. A-32012/2/2001-P.II(.).—In pursuance of the DoP&T's O.M. No. 5/8/2006/CS.II dated 1st March, 2007, the President is pleased to appoint Shri M. S. Bhakuni, Stenographers Grade "C" of the CSSS cadre of Water Resources as Steno. Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) of CSSS in the Ministry of Environment and Forests, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 10th July, 2007, for the period upto 31.12.2007 or till regular Stenos Grade 'A&B' (Merged) of CSSS become available, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

No. A-32012/2/2001-P.II(.).—In pursuance of the DoP&T's O.M. No. 5/8/2006/CS.II dated 29.06.2007, the term of ad hoc appointment of the following Stenos Grade "C" of the CSSS cadre as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) of CSSS in the Ministry of Environment and Forests, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- is extended for the period indicated against their names or till regular Stenos Grade 'A&B' (Merged) of CSSS become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period for which extension has been granted
	S/Shri	
1.	Smt. Neelam Talwar	01.07.2007 to 31.12.2007
2.	Smt. Sushma Chopra	01.07.2007 to 31.12.2007
3.	Smt. Usha Rani Sethi	01.07.2007 to 31.12.2007
4.	Vijay Kumar	01.07.2007 to 31.12.2007
5.	Smt. Anuradha Nippani	01.07.2007 to 31.12.2007
6.	R. C. Seth	01.07.2007 to 31.12.2007
7.	Ajay Kumar	01.07.2007 to 31.12.2007
8.	Rajesh Sajlani	01.07.2007 to 31.12.2007
9.	Shyam Kishore	01.07.2007 to 31.12.2007
10.	S. T. Moorjani	01.07.2007 to 31.12.2007
11.	Smt. Urmil Nangia	01.07.2007 to 31.12.2007
12.	Ms. Raj Kumari	01.07.2007 to 31.12.2007
13.	Ved Ram	01.07.2007 to 31.12.2007

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

New Delhi-110003, the 20th July 2007

No. A-32012/2/2006-P.I(.).—The President is pleased to appoint Ms. Rita Khanna as Scientist "E" in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 10.07.2007, until further orders, on promotion under the modified Flexible Complementing Scheme (FCS).

M. L. WADHWANI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 24th July 2007

No. 17013/23/2006-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with effect from 28th May, 2007, the following six officers of the State Forest Service of Kerala to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2003 and 2005 and allocate them to Kerala cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
---------	---------------------	---------------

Select List of 2003 :

- |    |                      |            |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Shri N. Sudhir (OBC) | 17.11.1953 |
|----|----------------------|------------|

Select List of 2004 :

S/Shri

- |    |                      |            |
|----|----------------------|------------|
| 1. | K. V. Ravikumar (SC) | 03.06.1951 |
| 2. | P. S. Mani (SC)      | 27.04.1951 |
| 3. | B. R. Vijaykumar     | 04.04.1955 |

Select List of 2005 :

S/Shri

- |    |                    |            |
|----|--------------------|------------|
| 1. | M. Sreedharan Nair | 23.05.1952 |
| 2. | B. P. Varghese     | 03.03.1951 |

G. DEVNANI, Under Secy.

No. 17013/29/2006-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with effect from 12th June, 2007, the following three officers of the State Forest Service of Tripura to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2005 and 2006 and allocate them to (Tripura segment) of Manipur-Tripura Joint cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
1	2	3

Select List of 2005 :

S/Shri

- |    |                     |            |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Samarendra Das (SC) | 24.02.1958 |
| 2. | Arupratan Sarma     | 24.12.1958 |

1	2	3
---	---	---

Select List of 2006 :

- |    |                           |            |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Shri Chandan Lal Das (SC) | 19.03.1964 |
|----|---------------------------|------------|

G. DEVNANI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 30th July 2007

No. A-32012/1/2006-P.II(.).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/5/2007-CS.II dated 11th July, 2007, the term of ad hoc appointment of Shri G. L. Sibal, Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Environment and Forests is extended upto 31.12.2007 or till regular Sr. PPS becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of ad hoc promotion of the above said officer upto 31.12.2007 to the post of Sr. PPS is purely ad hoc in nature and shall not confer on them any right to continue indefinitely or to claim seniority in the post of Sr. PPS of CSSS.

PREMA MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 19th July 2007

No. A-12025/151/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Premanand Madhuker to the Medical Officer's Grade of the Central Health Service in the Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 18th May, 2006 until further order. Dr. Premanand Madhuker is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Ranchi (Jharkhand), Dr. Premanand Madhuker shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 18th July 2007

No. A-19013/11/2005-Estt.I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2004-EO(MM-I) dated 06.07.2007, the President is pleased to re-designate the post of Deputy Secretary, presently held by Shri Amardeep S. Bhatia, IAS (NL : 93) to that of Director as a measure personal to him w.e.f. 06.07.2007 (FN) and upto the balance period of his tenure i.e. 23.01.2010 or until further orders, whichever is earlier.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 26th July 2007

No. A-32013/2/2007-Estt.I.—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2007-CS-I(Desk) dated 04th July, 2007, the President is pleased to appoint Shri Debashis Kumar Sengupta, Section Officers of CSS as Under Secretary in the Department of Health & FW, purely on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 23rd July, 2007.

2. The ad hoc promotion is subject to the following condition :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

---

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th July 2007

No. 32011/11/2006-E.II.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Smt. Seema Sethi, a regular Senior Technical Assistant (Cooperation/Credit) Grade-I, in the post of Assistant Director (Cooperation/Credit) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Department of Agriculture & Cooperation for a period of six months with effect from 22.06.2007 to 21.12.2007 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Assistant Director (Cooperation/Credit).

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 16th July 2007

No. 32011/2/2005-E.II/E.V.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following regular Deputy Commissioners (NRM/RFS) in the Department of Agriculture & Cooperation, in the post of Additional Commissioner (NRM/RFS) for the period mentioned against their names or until the posts are filled on regular basis whichever is earlier :—

1. Dr. Jose C. Samuel—from 07.04.2006 upto 07.10.2007
2. Shri K. R. Dhandapani—from 08.04.2006 upto 30.06.2006

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Additional Commissioner (NRM/RFS).

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 32011/2/2005-E.II/E.V.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri C. M. Pandey, a regular Assistant Commissioner (NRM/RFS) in the Department of Agriculture & Cooperation, in the post of Commissioner (NRM/RFS) for the period from 11.04.2006 upto 10.10.2007 or until the post is filled on regular basis whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Deputy Commissioner (NRM/RFS).

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 23rd July 2007

No. 27-2731/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri B. B. Mohapatra, IRS (C&CES-90), as Director in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 14,300-18,300/- with effect from the forenoon of 16th July, 2007 and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 27-2732/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. M. Subbarayan to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS purely on ad hoc basis, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 16th July, 2007 and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 27-2733/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri Rajender Kumar Gaba to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS purely on ad hoc basis, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 16th July, 2007 and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 31st July 2007

No. 38012/10/2007-Estt.I.—Shri S. K. Dhall, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2007 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd August 2007

No. 10-11/89-INM-A.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Dr. N. Tripathi, Director, Central

Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Department of Agriculture & Cooperation retired from Government service with effect from the afternoon of 30.06.2007.

B. J. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st July 2007

No. 4(232)/84-Pers.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. Om Vikas, Scientist 'G' (Emp. Code No. 61) in the Department of Information Technology retires from service with effect from afternoon of 31.07.2007.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 7th August 2007

No. PF/089/NIC/2007-Adm-I.—Shri N. Rathinavel, Scientist "F", Emp. Code : 089, National Informatics Centre, Hqrs, New Delhi has expired on 15.07.2007.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 30th July 2007

No. A-1-3/2007-Admn.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2007-CS.I(Desk) dated 04.07.2007, the President is pleased to appoint Shri A. K. Agarwal, Section Officer in the Ministry of Information & Broadcasting as Assistant Director General [Grade-I(US) of CSS] in the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad hoc basis, with effect from 23.07.2007 (F/N).

2. The ad hoc appointment shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor. The aforesaid appointment shall further be subject to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Genl. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th July 2007

No. ERB-I/2007/2/36.—Dr. V. K. Ramteke, IRMS, Chief Medical Director, Northern Railway, is appointed as Director

General, Railway Health Services, Railway Board, in scale Rs. 26,000/- (fixed), with effect from the forenoon of 02.07.2007.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

The 23rd July 2007

No. ERB-I/2007/14/2.—The following Personal Assistants (scale : Rs. 6,500–10,500/-) of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) have been promoted as Private Secretaries of RBSSS (Scale : Rs. 6,500–10,500/-) on ad hoc basis with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining as PSs
	S/Shri	
1.	Manoj Kumar Sharma	10.07.2007
2.	Sudarshan Kumar Sharma	10.07.2007
3.	Ms. Archana Sagar	11.07.2007
4.	Harish Kumar	10.07.2007
5.	M. B. Balaji	18.07.2007

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

No. ERB-I/2005/2/11.—Shri Bimal Minz, Private Secretary (Non-Functional Scale : Rs. 8,000–13,500/-) of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) has been promoted as Principal Private Secretary of RBSSS (Scale : Rs. 10,000–15,200/-) on ad hoc basis with effect from the forenoon of 11.07.2007.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

The 31st July 2007

No. E(GP)2004/1/57.—The President is pleased to approve of the undermentioned 15 Group 'B' officers of Accounts Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Accounts Service with effect from 26th April, 2007 on the Railways noted against each :—

S. No.	Name of Officer	
<u>Panel for 2005-06 vacancies</u>		
Eastern Railway		
	S/Shri	
1.	Sudha Krishna Hazra	(belongs to CLW)
2.	Vishnu Pada Sarkar (SC)	(belongs to CLW)

## North Western Railway

- S/Shri
1. J. N. Mathur
  2. M. L. Bohra
  3. M. H. Khan
  4. Ram Autar (SC)

## South Central Railway

1. D. Vijay Kumar (SC)

## South Western Railway

1. K. Kanakaratna (ST)

## West Central Railway

1. C. S. Saxena

Panel for 2006-07 vacancies

## East Central Railway

1. Md. Amanul Haque

## Eastern Railway

1. Alok Kr. Chatterjee (belongs to CLW)
2. Susanta Kr. Halder (SC) (belongs to CLW)

## North Western Railway

1. Balbir Singh

## South Central Railway

1. B. Venkat Rao

## West Central Railway

1. R. H. Meena (ST)

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

The 1st August 2007

No. E(GP)2004/1/58.—The President is pleased to appoint the undermentioned 4 Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways to the Junior Scale of Indian Railway Traffic Service with effect from 16th April, 2007 on the Railways noted against each :—

S. No.	Name of Officer
--------	-----------------

Panel for 2005-06 vacancies

## North Eastern Railway

S/Shri

1. A. Hansda (ST)

## South Eastern Railway

1. S. C. Banerjee

## Western Railway

1. S. K. Mishra

Panel for 2006-07 vacancies

## Northern Railway

1. R. K. S. Rathore

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

The 2nd August 2007

No. ERB-I/2007/2/24.—Shri G. R. Vij, HAG/IRTS, Railway Board, is appointed as Additional Member (C & IS), Railway Board, in Grade Rs. 24,050–26,000/- with effect from the forenoon of 16.07.2007.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

No. ERB-I/2007/2/24.—Shri Vivek Sahai, HAG/IRTS, Railway Board, is appointed as Additional Member (TT), Railway Board, in Grade Rs. 24,050–26,000/- with effect from the forenoon of 16.07.2007.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

New Delhi, the 16th January 2004

No. 2002/E/(GR)I/10/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Accounts Service with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Ms.	
1.	Chandip Singh	23.12.2002
2.	Gopal Krishna Jha	02.09.2002
3.	Asawa Manoj Rajgopal (Provisional)	02.09.2002
4.	Rohita Mishra	23.12.2002
5.	Shreeshaail Malge (Provisional)	02.09.2002
6.	Vijay Sharma	23.12.2002
7.	Agnihotri Sonal Mohan	02.09.2002
8.	Akhilesh Kumar Jha (Provisional)	23.12.2002
9.	Abhishek Kumar (Provisional)	23.12.2002
10.	Om Prakash	27.12.2002
11.	Vikram Kumar (Provisional)	23.12.2002
12.	Ravindra Pratap Singh (Provisional)	23.12.2002
13.	Lavidiya Jeevan Lal (Provisional)	02.09.2002
14.	Harkesh Meena	23.12.2002
15.	Rahul Kapoor	02.09.2002

MANEESH KUMAR, Jt. Dir. Estt. (GR)

New Delhi, the 22nd July 2004

## CORRIGENDUM

No. 2002/E/(GR)I/10/1.—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 2002/E/(GR)I/10/1 dated 16.01.2004 may be deleted :—

S/Shri

1. Asawa Manoj Rajgopal
2. Shreeshail Malge
3. Ravindra Pratap Singh
4. Lavidiya Jeeven Lal

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt.  
(Gaz. Rectt.)

The 1st February 2006

## CORRIGENDUM

No. 2002/E/(GR)I/10/1.—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 2002/E/(GR)I/10/1 dated 16.01.2004 may be deleted.

S/Shri

1. Abhishek Kumar
2. Vikram Kumar

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt.  
(Gaz. Rectt.)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS  
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND  
HIGHWAYS)

New Delhi, the 30th July 2007

No. A-32013-10/2006-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Purshottam Kumar an officer of CES (Road) Group "B" to the post of Executive Engineer (Civil), Central Engineering Service Group 'A' in the Department of Road Transport and Highways, New Delhi, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 18.07.2007 (F.N.) and until further orders.

B. N. MISHRA, Under Secy.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 27th July 2007

No. 27/2007 (F. No. 38012/1/2007-Adm.I.—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of assumption of charge
1.	Shri Brijander Kumar Saini	26.06.2007 (Afternoon)
2.	Shri Dinesh Kumar Bauri	02.07.2007 (Forenoon)
3.	Shri Sandeep Malik	29.06.2007 (Forenoon)

2. The officers will be on probation for a period of two years from the date of assuming the charge.

R. C. ARORA, Under Secy.